



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 536]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 17, 1979/अग्रहायण 26, 1901

No. 536]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 17, 1979/AGRAHAYANA 26, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

रेल भण्डालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1979

का०आ० 810(अ).—यतः इसमें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डरग्राउण्ड अधिकार) का अर्जन कदकता
नगर में मेट्रो रेलवे और उसमें सम्बन्धित अन्य निमोण कार्यों के निमोण के प्रयोजन के लिए अर्पित है।

और यतः केन्द्रीय सरकार न इस बात का समाधान कर दिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर
ग्राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिए अर्पित है।

अतः केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डरग्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निमोण
कार्यों का निर्माण), अधिनियम 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार अर्जित करने के लिए अपने आशय की
घोषणा करती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई हितधिकारी व्यक्ति शक्ति, यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत
यथा विहित सभ्य प्राधिकारी के सम्मुख इस अधिसूचना के प्रकाशन का तारीख से पच्चीस दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उससे सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अर्पित है, को वर्णित वाली अनुसूची

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची संख्या 10/1

प्लान का संदर्भ	प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्पित अथवा भूमि आदि में उपयोग का अधिकार अर्पित है	भूमि आदि, जिसमें उपयोग का अधिकार अर्पित हो, का क्षेत्रफल, विवरण तथा उसकी सीमा-रेखा (अन्डर ग्राउन्ड अधिकार)
सेट	शीट	
भाग 1		
ड्राइंग नं० एम०आर०सी०/इल्यू०/लेण्ड/276-79	मेट्रो रेलवे तथा उससे सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण।	46.75 वर्ग मीटर
भाग-2		
-यथोक्त-	-यथोक्त-	68.75 वर्ग मीटर
कुल क्षेत्रफल :		115.50 वर्ग मीटर (.0115 हेक्टेयर)

[संख्या 79/एम०टी०पी०/सी/एल०ए०/31]

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, 17th December, 1979

S. O. 810 (E).—Whereas the acqn. of right of User (under ground right) in the land, building, etc. mentioned herein in the Schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the city of Calcutta.

And Whereas the Central Government is satisfied that the right of user (underground right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below are required for a public purpose.

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (underground right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of works) Act, 1978 (Act 33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, in which right of user is required for the purpose of construction

of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway :

CALCUTTA METROPOLITAN CITY

LAND SCHEDULE NUMBER 10/1

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required	Area, description and boundary of the land etc. which right of user is required		(UNDERGROUND RIGHT)	
Set	Sheet		Area in Sq. M.	Description	Boundary of the land	
			PART I			
Drg. No. MRC/		Construction of Metro Railway & other works connected therewith.	46.75 Sqm.	Below 2, Bhairab Mukherjee Lane.	North	Northern part of the same premises.
W/Land/276-79.					South	— 3, Bhairab Mukherjee lane.
					East	— Eastern Railway Land.
					West	—3, Bhairab Mukherjee Lane.
			PART II			
-do-	-do-		68.75 Sqm.	Below 2, Bhairab Mukherjee Lane.	North	--Northern part of the same premises.
					South	—Southern part of the same premises.
					East	--1/1, Bhairab Mukherjee Lane.
					West	— Bhairab Mukherjee Lane.
TOTAL AREA :			115.50 Sqm. 0.(115 hectare)			

कां० 811(अ).—यतः इसमें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) का अर्जन कलकत्ता नगर में मेट्रो रेलवे और उससे सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने इस बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर-ग्राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

अतः केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार अर्जित करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई हितधिकारी व्यक्ति यापत्ति, यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत यथा विहित मकम प्राधिकारी के सम्मुख इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि, जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उससे सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, को दर्शाने वाली अनुसूची

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची संख्या 10/2

प्लान का संदर्भ		प्रयोजन जिसके लिए भूमि आदि अथवा भूमि आदि में उपयोग का अधिकार अपेक्षित है	भूमि आदि, जिसमें उपयोग का अधिकार अपेक्षित हो, का क्षेत्रफल, विवरण तथा उसकी सीमा-रेखा (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार)		
सेट	शीट		क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विवरण	भूमि की सीमा रेखा
ड्राइंग सं० एम०आर०सी०/डब्ल्यू०/लेण्ड/276-79		मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण।	115.50 वर्गमीटर (.01155 हेक्टेयर)	3, भैरव मुखर्जी लेन के नीचे	उत्तर—3, भैरव मुखर्जी लेन का उत्तरी भाग दक्षिण—3, भैरव मुखर्जी लेन का दक्षिणी भाग पूर्व—2, भैरव मुखर्जी लेन पश्चिम—भैरव मुखर्जी लेन (रोड)

[संख्या 79/एम०टी०पी०सी०एल०ए०/32]

S. O. 811(E).—Whereas acquisition of right of user (Underground Right) in the land, building, etc. mentioned herein in the Schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the City of Calcutta.

And Whereas the Central Government is satisfied that the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below are required for public purpose.

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below, in term of the power conferred on them under Section 7 (1) of the Metro Railway (Construction of Works) Act 1978 (Act 33 of 1978).

Any persons interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9 (1) of the Act.

Schedule showing the land, in which right of user is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway

CALCUTTA METROPOLITAN CITY

LAND SCHEDULE NUMBER 10/2

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required	Area, description and boundary of the land etc. in which right of user is required (UNDERGROUND RIGHT)		
Set	Sheet		Area in Sq. M.	Description	Boundary of the land
Drg. No. MRC/W/Land/276-79		Construction of Metro Railway and other works connected therewith.	115.50 Sqm. (.01155 Hectares)	Below 3, Bhairab Mukherjee Lane.	North —Northern part of 3, Bhairab Mukherjee Lane. South —Southern part of 3, Bhairab Mukherjee Lane. East —2, Bhairab Mukherjee Lane. West —Bhairab Mukherjee Lane (Road)

[No. 79/MTP/C/LA/32]

क्रा०प्रा० 812(प्र).—यतः इयं नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) का अर्जन कलकत्ता नगर में मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने इस बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

अतः केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई हितधिकारी व्यक्ति आपत्ति, यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत यथा विहित सूक्ष्म प्राधिकारी के सम्मुख इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इसकीस दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि, जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, को दर्शाने वाली अनुसूची

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची संख्या 10/3

प्लान का संदर्भ		प्रयोजन, जिसके लिए भूमि आदि अथवा भूमि आदि में उपयोग का अधिकार अपेक्षित है	भूमि आदि, जिसमें उपयोग का अधिकार अपेक्षित हो, का क्षेत्रफल, विवरण तथा उसकी सीमा रेखा (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार)
सेट	शीट		
		क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	विवरण
ड्राइंग सं०एम०आर०सी०/डब्ल्यू०/लेड/276-79	मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण	79.75 वर्ग मीटर (.007975 हेक्टेयर)	उत्तर—उसी परिसर का उत्तरी भाग दक्षिण—उसी परिसर का दक्षिणी भाग तथा 2, भैरव मुखर्जी लेन पूर्व—पूर्व रेलवे भूमि पश्चिम—2, भैरव मुखर्जी लेन

[संख्या 79/एम०टी०पी०/सी०एम्०ए०/33]

S. O. 812(E).—Whereas acquisition of right of user (Underground Right) in the land, building, etc. mentioned herein in the Schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the City of Calcutta.

And Whereas the Central Government is satisfied that the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the Schedule below are required for public purpose.

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of User (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the Schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7 (1) of the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, in which right of user is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway

CALCUTTA METROPOLITAN CITY

LAND SCHEDULE NUMBER 10/3

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. or the right of User in the land etc. is required	Area, description and boundary of the land etc. in which right of user is required (UNDERGROUND RIGHT)		
Set	Sheet		Area in Sq. M.	Description	Boundary the land of
Drg. No. MRC/W/Land/276-79		Construction of Metro Railway and other works connected therewith.	79.75 Sqm. (.007975 Hectare)	Below 1/1, Bhairab Mukherjee Lane.	North—Northern part of same premises. South—Southern part of the same premises & 2, Bhairab Mukherjee Lane. East—Eastern Railway Land. West—2, Bhairab Mukherjee Lane.

[No. 79/MTP/C/LA/33]

का०प्रा० 813(अ).—यतः इसमें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डरग्राउण्ड अधिकार) का अर्जन कलकत्ता नगर में मेट्रो रेलवे और उसमें संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने इस बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डरग्राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है;

अतः केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डरग्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार अर्जित करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई हिताधिकारी व्यक्ति आपत्ति, यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत यथा विहित मक्षम प्राधिकारी के सम्मुख इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एकसौ दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि, जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उसमें संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, को दर्शाने वाली अनुसूची

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची संख्या 10/4

प्लान का संदर्भ		प्रयोजन जिसके लिए भूमि आदि अथवा भूमि आदि में उपयोग का अधिकार अपेक्षित है।	भूमि आदि, जिसमें उपयोग का अधिकार अपेक्षित हो, का क्षेत्रफल, विवरण तथा उसकी सीमा-रेखा (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार)		
सेट	शीट		क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विवरण	भूमि की सीमा रेखा
ड्राइंग सं० एम०आर०सी०/डब्ल्यू०/सी०/276-79		मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण।	5.00 वर्ग मीटर (.005 हेक्टेयर)	15, भैरव मुखर्जी लेन के नीचे	उत्तर—उसी परिसर का उत्तरी भाग दक्षिण—14/2, भैरव मुखर्जी लेन पूर्व—भैरव मुखर्जी लेन पश्चिम—14/3, भैरव मुखर्जी लेन

[संख्या 79/एम०टी०पी०/सी०एल०ए०/34]

S. O.813(E).—Whereas acquisition of right of user (Underground Right) in the land, building, etc. mentioned herein in the Schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the City of Calcutta;

And whereas the Central Government is satisfied that the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the Schedule below are required for public purpose;

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of User (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the Schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978 (Act, 33 of 1978).

Any Person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as proscribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, in which right of user is required for the purpose of construction

of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway

CALCUTTA METROPOLITAN CITY

LAND SCHEDULE NUMBER 10/4

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required	Area, description and boundary of the land etc. in which right of user is required		
Set	Sheet		(UNDERGROUND RIGHT)		
			Area in Sq. M.	Description	Boundary of the land
Drg. No. MRC/W/Land/276-79		Construction of Metro Railway and other works connected therewith.	5.00 Sqm. (.005 Hectare)	Below 15, Bhairab Mukherjee Lane.	North—Northern part of the same premises. South—14/2, Bhairab Mukherjee Lane. East—Bhairab Mukherjee Lane. West—14/3, Bhairab Mukherjee Lane.

[No. 79/MTP/C/LA/34]

का० प्रा० 815(अ).—यह: इसमें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डरग्राउण्ड अधिकार) का अर्जन कलकत्ता नगर में मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है;

और यह: केन्द्रीय सरकार ने हमें बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है;

अतः केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डरग्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई हितधारक व्यक्ति आपत्ति, यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत यथा विहित सभ्य प्राधिकारी के सम्मुख हम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि, जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, को दर्शाने वाली अनुसूची

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची संख्या 10/5

प्लान का संदर्भ		प्रयोजन जिसके लिए भूमि आदि अथवा भूमि आदि में उपयोग का अधिकार अपेक्षित है	भूमि आदि जिसमें उपयोग का अधिकार अपेक्षित हो, का क्षेत्रफल, विवरण तथा उसकी सीमा-रेखा (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार)
सेट	शीट		
		क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विवरण
डाटा सं० एम०आर०सी०/डब्ल्यू०/लैंड/276-79	मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण।	46.00 वर्ग मीटर (.0046 हेक्टेयर)	14/2, भैरव मुखर्जी लेन के नीचे उत्तर—15, भैरव मुखर्जी लेन दक्षिण—उसी परिसर का दक्षिणी भाग पूर्व—भैरव मुखर्जी लेन पश्चिम—14/3, भैरव मुखर्जी लेन

[संख्या 79/एम०टी०पी०/सी/एम०ए०/35]

S. O. 814(E).—Whereas acquisition of right of user (Underground Right) in the land, building, etc. mentioned herein in the schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the City of Calcutta;

And whereas the Central Government is satisfied that the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the Schedule below are required for public purpose;

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the Schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7 (1) of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, in which right of user is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway

CALCUTTA METROPOLITAN CITY

LAND SCHEDULE NUMBER 10/5

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required	Area, description and boundary of the land etc. in which right of user is required		
Set	Sheet		(UNDERGROUND RIGHT)		
			Area in Sq. M.	Description	Boundary of the land
Drg. No. MRC/W/Land/276-79.		Construction of Metro Railway and other works connected therewith.	46.00 Sqm. (.0046 Hectare)	Below 14/2, Bhairab Mukherjee Lane	North—15, Bhairab Mukherjee Lane. South—Southern part of the same premises. East—Bhairab Mukherjee Lane. West—14/3, Bhairab Mukherjee Lane.

[No. 79/MTP/C/LA/35]

का० प्रा० 815(अ).—यतः इसमें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डरग्राउण्ड अधिकार) का अर्जन कलकत्ता नगर में मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने इस बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डरग्राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है;

अतः केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डरग्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्ति शक्तियों के अनुसार अर्जित करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई हिताधिकारी व्यक्ति आपत्ति, यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत यथा विहित रक्षक प्राधिकारी के सम्मुख इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दसवीं दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि, जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, को दर्शाने वाली अनुसूची

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची संख्या 10/6

प्लान का संदर्भ		प्रयोजन जिसके लिए भूमि आदि अथवा भूमि आदि में उपयोग का अधिकार अपेक्षित है	भूमि आदि, जिसमें उपयोग का अधिकार अपेक्षित हो, का क्षेत्रफल, विवरण तथा उसकी सीमा-रेखा (अण्डरग्राउण्ड अधिकार)
सेट	शीट		
			क्षेत्रफल वर्गमीटर में
			विवरण
			भूमि की सीमा रेखा
ड्राइंग सं० एम०आर०सी०/इन्फ्लू/सैड/27 6-79		मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण	78.37 वर्गमीटर (.007837 हेक्टेयर)
			14/1, भैरव मुखर्जी लेन के नीचे
			उत्तर—उसी परिसर का उत्तरी भाग तथा 14/2, भैरव मुखर्जी लेन
			दक्षिण—उसी परिसर का दक्षिणी भाग
			पूर्व—भैरव मुखर्जी लेन
			पश्चिम—14/ए, भैरव मुखर्जी लेन

[संख्या 79/एम०टी०पी०/सी/एल०ए०/36]

S. O.815(E).—Whereas acquisition of right of user (Underground Right) in the land, building, etc. mentioned herein in the schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other Works connected therewith in the City of Calcutta;

And whereas the Central Government is satisfied that the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below are required for public purpose;

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (Underground Right) in the land, building, etc., referred to in the schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of Works) Act 1978 (Act 33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, in which right of user is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway

CALCUTTA METROPOLITAN CITY

LAND SCHEDULE NUMBER 10/6

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required	Area, description and boundary of the land etc. in which right of user is required (UNDERGROUND RIGHT)		
Set	Sheet		Area in Sq. M.	Description	Boundary of the land
Drg. No. MRC/W/Land/276-79		Construction of Metro Railway and other works connected therewith	78.37 Sq m. (.007837 Hectare)	Below 14/1, Bhairab Mukherjee Lane	North —Northern part of the same premises and 14/2, Phairab Mukherjee Lane. South —Southern part of the same premises. East —Bhairab Mukherjee Lane. West —14/A, Bhairab Mukherjee Lane.

[No. 79/MTP/C/LA/36]

का० 816(अ).—यतः इसमें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डरग्राउण्ड अधिकार) का अर्जन कलकत्ता नगर में मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने इन बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डरग्राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है;

अतः केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डरग्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार अर्जित करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई हितधिकारी व्यक्ति आपत्ति, यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत यथा विहित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से हफ्ता दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि, जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, को बताने वाली अनुसूची

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची संख्या 10/7

प्लान का संदर्भ		प्रयोजन जिसके लिए भूमि	भूमि आदि, जिनमें उपयोग का अधिकार अपेक्षित हो, का क्षेत्रफल, विवरण तथा उसकी सीमा-रेखा (अण्डरग्राउण्ड अधिकार)
सेट	शीट	आदि शेषवा भूमि आदि में उपयोग का अधिकार अपेक्षित है	
		क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विवरण
ड्राइंग सं० एम०आर०सी०/इल्यू०/लैंड/276-79		52.25 वर्गमीटर (.005225 हेक्टेयर)	14/3, भैरव मुखर्जी लेन के नीचे
			उत्तर—उसी परिसर का उत्तरी भाग दक्षिण—उसी परिसर का दक्षिणी भाग पूर्व—14/2, भैरव मुखर्जी लेन पश्चिम—13/1, भैरव मुखर्जी लेन

[संख्या 79/एम०टी०पी०सी०/एल० ए०/37]

S.O.816(E).—Whereas acquisition of right of user (Underground Right) in the land, building, etc. mentioned herein in the schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the City of Calcutta;

And whereas the Central Government is satisfied that the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below are required for public purpose;

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of Works) Act 1978 (Act 33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, in which right of user is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway

CALCUTTA METROPOLITAN CITY

LAND SCHEDULE NUMBER 10/7

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required	Area, description and boundary of the land etc. in which right of user is required (UNDERGROUND RIGHT)		
Set	Sheet		Area in Sq. M.	Description	Boundary of the land
Drg. No. MRC/W/Land/276-79		Construction of Metro Railway and other works connected therewith	52.25 Sq. m. (.005225 hectares)	Below 14/3, Bhairab Mukherjee Lane	North—Northern portion of the same premises. South—Southern portion of the same premises. East—14/2, Bhairab Mukherjee Lane. West—13/1, Bhairab Mukherjee Lane.

[No. 79/MTP/C/LA/37]

का० प्रा० 817(अ).—यतः इसमें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) का अर्जन कलकत्ता; नगर में मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के लिए प्रयोजन अपेक्षित है।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने इस बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

अतः केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार अर्जित करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई हितधिकारी व्यक्ति आपत्ति, यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत यथा विहित सख्त प्राधिकारी के सम्मुख इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि, जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, को दर्शाने वाली अनुसूची

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची संख्या 10/8

प्लान का सबसे		प्रयोजन जिस लिए भूमि	भूमि आदि, जिसमें उपयोग का अधिकार अपेक्षित हो, का क्षेत्रफल, विवरण तथा उसकी सीमा-रेखा (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार)		
सेट	सीट	आदि प्रयत्न या भूमि में उपयोग का अधिकार अपेक्षित है	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विवरण	भूमि की सीमा रेखा
ड्राइंग सं० एम० आर० सी०/बम्बू०/सीट/276-79		मेट्रो रेलवे तथा उससे सम्बंधित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण।	33.00 वर्ग मीटर (.00330 हेक्टेयर)	13/1, बैरब मुखर्जी लेन	उत्तर—उसी परिसर का उत्तरी भाग दक्षिण—13/1, एवं 14/ए और 13/1 एवं 13, बैरब मुखर्जी लेन बीच का रास्ता पूर्व—14/3, बैरब मुखर्जी लेन पश्चिम—बैरब मुखर्जी लेन

[संख्या 79/एम०टी०पी०/सी/एल०ए०/38]

S. O. 817(E).—Whereas acquisition of right of user (Underground Right) in the land, building, etc. mentioned herein in the schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the City of Calcutta.

And whereas the Central Government is satisfied that the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below are required for public purpose.

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of Works) Act 1978 (Act 33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, in which right of user is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway

CALCUTTA METROPOLITAN CITY LAND SCHEDULE NUMBER 10/8

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required	Area, description and boundary of the land etc. in which right of user is required		
Set	Sheet		(Underground Right)		
			Area in Sq. M.	Description	Boundary of the land
Drg. No. MRC/W/Land/276-79		Construction of Metro Railway and other works connected therewith	33.00 Sq. m. (.00330 Hectares)	Below 13/1, Bairab Mukherjee Lane.	North —Northern part of the same premises. South —Passage between 13/1 & 14/A and 13/1 & 13, Bhairab Mukherjee Lane. East —14/3, Bhairab Mukherjee Lane. West —Bhairab Mukherjee Lane.

का० प्रा० 818(अ):—यतः इसमें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) का अर्जन कलकत्ता नगर में मेट्रो रेलवे और उससे सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिये अपेक्षित है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने इस बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है ;

अतः केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार अर्जित करने के लिये अपने आशय की घोषणा करती है नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई हिताधिकारी व्यक्ति आपत्ति, यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत यथा विहित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि, जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिये मेट्रो रेलवे और उससे सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिये अपेक्षित है, को दर्शाने वाली अनुसूची :

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची सं० 10/9

प्लान का सदर्थ		प्रयोजन जिसके लिये भूमि	भूमि आदि, जिसमें उपयोग का अधिकार अपेक्षित हो, का क्षेत्रफल, विवरण तथा उसकी		
		आदि अथवा भूमि आदि में	सीमा-रेखा (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार)		
सेट	शीट	उपयोग का अधिकार अपेक्षित है	क्षेत्रफल मीटर में	विवरण	भूमि की सीमा रेखा
1	2	3	4	5	6
ड्राइंग सं० एम० ग्रा० सी०/- इन्सपू०/लैंड/276-79	मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण	3.75 वर्गमीटर (.000375 हेक्टेयर)	13/1 एवं 14/ए भैरव मुखर्जी लेन के बीच के रास्ते के नीचे	उत्तर—13/1, भैरव मुखर्जी लेन दक्षिण—14/ए, भैरव मुखर्जी लेन, पूर्व—14/ए एवं 14/3, भैरव मुखर्जी लेन के बीच का रास्ता। पश्चिम—13 एवं 13/1, भैरव मुखर्जी लेन के बीच का रास्ता।	

[सं० 79/एम०टी०पी०/सी०एल०ए०/39]

S. O. 818(E).—Whereas acquisition of right of user (Underground Right) in the land, building, etc. mentioned herein in the schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the City of Calcutta;

And whereas the Central Government is satisfied that the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below are required for public purpose;

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of Works) Act 1978 (Act 33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, in which right of user is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway :

CALCUTTA METROPOLITAN CITY
LAND SCHEDULE NUMBER 10/9

Reference to Plan	Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required	Area, description and boundary of the land etc. in which right of user is required	(UNDERGROUND RIGHT)	
Set	Sheet	Area in Sq. M.	Description	Boundary of the land
Drg. No. MRC/W/Land/ 276-79	Construction of Metro Railway and other works connected therewith	3.75 Sq. m. (.000375 Hectares)	Below passage between 13/1 and 14/A Bhairab Mukherjee Lane	North—13/1, Bhairab Mukherjee Lane. South—14/A, Bhairab Mukherjee Lane. East—Passage between 14/A and 14/3, Bhairab Mukherjee Lane. West—Passage between 13 and 13/1, Bhairab Mukherjee Lane.

[No. 79/MTP/C/LA/39]

का० प्रा० 819(प्र).— यतः इसमें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर-ग्राउण्ड अधिकार) का अर्जन कलकत्ता नगर में मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिये अपेक्षित है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने इस बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर-ग्राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है ;

अतः केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर-ग्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार अर्जित करने के लिये अपने आशय की घोषणा करती है नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई हिताधिकारी व्यक्ति आपत्ति, यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत यथा विहित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के इक्कीस दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि, जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिये मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिये अपेक्षित है, को दर्शाने वाली अनुसूची :

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची सं० 10/10

प्लान का संदर्भ		प्रयोजन जिसके लिये भूमि आदि अपेक्षित है	भूमि आदि, जिसमें उपयोग का अधिकार अपेक्षित हो, का क्षेत्रफल, विवरण तथा उसकी सीमा रेखा (अण्डर-ग्राउण्ड अधिकार)		
सेट	शीट		क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विवरण	भूमि की सीमा रेखा
1	2	3	4	5	6
डाईंग सं० एम०प्रा०सी०/इन्सू०/वैड/276-79		मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण	6.00 वर्गमीटर (.0006 हेक्टेयर)	13 और 13/1, भैरव मुखर्जी लेन के बीच के रास्ते के नीचे	उत्तर—13/1, भैरव मुखर्जी लेन दक्षिण—13, भैरव मुखर्जी लेन पूर्व—13/1, और 14/ए, भैरव मुखर्जी लेन के बीच का रास्ता। पश्चिम—भैरव मुखर्जी लेन।

[सं० 79/एम०टी०पी०/सी/एल०ए०/40]

S. O. 819(E).—Whereas acquisition of right of user (Underground Right) in the land, building, etc. mentioned herein in the schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the City of Calcutta ;

And whereas the Central Government is satisfied that the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below are required for public purpose.

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of Works) Act 1978 (33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, in which right of user is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway :

CALCUTTA METROPOLITAN CITY
LAND SCHEDULE NUMBER 10/10

Reference to Plan Set Sheet.	Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required	Area, description and boundary of the land etc. in which right of user is required. (UNDERGROUND RIGHT)		
		Area in Sq. M.	Description	Boundary of the land
Drg. No. MRC/W/Land/ 276-79	Construction for Metro Railway and other works connected therewith.	6.00 Sqm. (.0006 Hectares)	Below Passage between 13 and 13/1, Bhairab Mukherjee Lane.	North—13/1, Bhairab Mukherjee Lane. South—13, Bhairab Mukherjee Lane. East—Passage between 13/1 and 14/A, Bhairab Mukherjee Lane. West—Bhairab Mukherjee Lane.

[No: 79/MTP/C/LA/40]

का० प्रा० 820(अ).—यतः इसमें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर-ग्राउण्ड अधिकार) का अर्जन कलकत्ता नगर में मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिये अपेक्षित है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने इस बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर-ग्राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है ;

अतः केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर-ग्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार अर्जित करने के लिये अपने आशय की घोषणा करती है । नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई हितधिकारी व्यक्ति प्राप्त, यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत यथा विहित सख्त अधिकारों के सम्मुख इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एकसौ दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है ।

भूमि, जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिये मेट्रो रेलवे और उससे सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिये अपेक्षित है का वर्णन वाली अनुसूची :

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची नं० 10/11

प्लान का संदर्भ		प्रयोजन जिसके लिये भूमि भूमि आदि, जिसमें उपयोग का अधिकार अपेक्षित हो, का क्षेत्रफल, विवरण तथा उसकी सीमा रेखा (अण्डर-ग्राउण्ड अधिकार)			
सेट	शीट	उपयोग का अधिकार अपेक्षित है	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विवरण	भूमि की सीमा रेखा
1	2	3	4	5	6
डाईंग सं० एम० ग्रा० सी०/डब्ल्यू०/सैंड/276-79		मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण	68 वर्गमीटर (0.0066 हेक्टेयर)	14/ए, भैरव मुखर्जी लेन के नीचे	उत्तर—उसी परिसर का उत्तरी भाग दक्षिण—उसी परिसर का दक्षिणी भाग पूर्व—14/1, भैरव मुखर्जी लेन पश्चिम—13, भैरव मुखर्जी लेन

[सं० 79/एम०टी०पी०/सी०/एस०ए०/41]

S. O. 820(E).—Whereas acquisition of right of user (Underground Right) in the land, building, etc. mentioned herein in the schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the City of Calcutta;

And whereas the Central Government is satisfied that the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below are required for public purpose.

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of Works) Act 1978 (33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, in which right of User is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway :

CALCUTTA METROPOLITAN CITY

LAND SCHEDULE NUMBER 10/11

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required	(UNDERGROUND RIGHT)		
Set	Sheet		Area in Sq. M.	Description	Boundary of the land
Drg. No. MRC/W/Land/276/79		Construction of Metro Railway and other works connected therewith	66 Sqm. (0.0066 Hectares)	Below 14/A, Bhairab Mukherjee Lane	North—Northern portion of the same premises. South—Southern portion of the same premises. East—14/A, Bhairab Mukherjee Lane. West—13, Bhairab Mukherjee Lane.

[No. 79/MTP/C/LA/41]

कां.सं. 821(ख).—यतः इसमें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) का अर्जन कलकत्ता नगर मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिये अपेक्षित है।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने हम बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है।

अतः केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार अर्जित करने के लिये अपने आशय की घोषणा करती है नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई हिताधिकारी व्यक्ति आपत्ति यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम में धारा 9(1) के अन्तर्गत यथा विहित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख इस अधिकसूचना के प्रकाशन की तारीख के इक्कीस दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि, जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिये मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिये अपेक्षित है, को दर्जाने वाली अनुसूची :

कलकत्ता महीनपर

भूमि अनुसूची सं. 10/12

प्लान का संदर्भ		प्रयोजन जिसके लिये भूमि आदि अथवा भूमि आदि में का अधिकार अपेक्षित है उपयोग	भूमि आदि, जिसमें उपयोग का अधिकार अपेक्षित हो, का क्षेत्रफल, विवरण तथा उसका मोमा-रेखा (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार)		
सेट	शीट		क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विवरण	भूमि की सीमा रेखा
ड्राइंग सं. एम०आर० सी०/डब्ल्यू०/एच०/276-79		मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण	27.50 वर्गमीटर (.002750 हेक्टेयर)	13, भैरव मुखर्जी लेन के नीचे	उत्तर—उसी परिसर का उत्तरी भाग दक्षिण—उसी परिसर का दक्षिणी भाग पूर्व—14/ए, भैरव मुखर्जी लेन पश्चिम—भैरव मुखर्जी लेन

[नं० 79/एम०टी०पी०/सी०/एल० ए०/42]

S.O. 821(E).—Whereas acquisition of right of user (Underground Right) in the land, building, etc. mentioned herein in the schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the City of Calcutta:

And whereas the Central Government is satisfied that the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below are required for public purpose.

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (Act 33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc., referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, in which right of user is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway :

CALCUTTA METROPOLITAN CITY

LAND SCHEDULE NUMBER 10/12

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required	Area, description and boundary of the land etc. in which right of user is required (UNDERGROUND RIGHT)		
Set	Sheet		Area in Sq. M.	Description	Boundary of the land
Drg. No. MRC/W/ Land/276-79		Construction of Metro Railway and other works connected therewith	27.50 Sqm. (.002750 hectare)	Below 13, Bhairab Mukherjee Lane	North—Northern portion of the same premises. South—Southern portion of the same premises. East—14/A, Bhairab Mukherjee Lane. West—Bhairab Mukherjee Lane.

[No. 79/MTP/C/LA/42]

का० प्रा० 822(अ).—यतः इसमें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (ग्रण्डर ग्राउण्ड अधिकार) को अर्जन कलकत्ता नगर में मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिये प्रेषित है।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने इस बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (ग्रण्डर ग्राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिये प्रेषित है।

अतः केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (ग्रण्डर ग्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार अर्जित करने के लिये अपने आशय की घोषणा करती है नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई हितधिकारी व्यक्ति आपत्ति, यदि कोई हो तो उक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत यथा बहिष्ठ सखम प्राधिकारी के सम्मुख इस अधिमूचना के प्रकाशन की तारीख से दसकोस दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि, जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिये मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिये प्रेषित है, को बहाने वाली अनुसूची

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची सं० 10/13

प्लान का संदर्भ		प्रयोजन जिसके लिये भूमि आदि ग्रहण भूमि आदि में उपयोग का अधिकार प्रेषित है	भूमि आदि, जिसमें उपयोग का अधिकार प्रेषित हो, का क्षेत्रफल, विवरण तथा उसकी सीमा-रेखा (ग्रण्डर-ग्राउण्ड अधिकार)		
सेट	शीट		क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विवरण	भूमि की सीमा रेखा
1	2	3	4	5	6
भाग I					
ड्राइंग सं० एम०प्रा० सी०/इन्स्यू०/लैंड/276-79		मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्य का निर्माण	19.12 वर्गमीटर के नीचे	12/1 बी, भैरव मुखर्जी लेन के नीचे	उत्तर—उसी परिसर का उत्तरी भाग दक्षिण—भैरव मुखर्जी लेन पूर्व—भैरव मुखर्जी लेन पश्चिम—12/1ए भैरव मुखर्जी लेन
भाग II					
-यचीक-	-यचीक-	8 वर्ग मीटर	12/1 बी, भैरव मुखर्जी लेन के नीचे	उत्तर—12/2 भैरव मुखर्जी लेन दक्षिण—उसी परिसर का दक्षिणी भाग पूर्व—भैरव मुखर्जी लेन पश्चिम—12/1ए भैरव मुखर्जी लेन	
			कुल क्षेत्रफल : 24.12 वर्ग मीटर (.002412 हेक्टेयर)		

[रकमा 79/एम० टी० पी०/सी०/एल० ए०/43]

S.O. 822(E).—Whereas the acquisition of right of user (underground right) in the land, building, etc. mentioned here in in the schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the city of Calcutta.

And whereas the Central Government is satisfied that the right of user (underground right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below are required for a public purpose.

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (underground right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (Act, 33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, in which right of user is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway :

**CALCUTTA METROPOLITAN CITY
LAND SCHEDULE NUMBER 10/13**

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required	Area, description and boundary of the land etc. in which right of user is required (UNDERGROUND RIGHT)		
Set	Sheet'		Area in Sq. M.	Description	Boundary of the land
PART I					
Drng. No.MRC/ W/Land/ 276—79		Construction of Metro Railway & other works connected therewith	19.12 Sqm.	Below 12/1B, Bhairab Mukherjee Lane	North—Northern part of the same premises. South—Bhairab Mukherjee Lane. East—Bhairab Mukherjee Lane. West—12/1A, Bhairab Mukherjee Lane.
PART II					
-do-	-do-		5 Sqm.	Below 12/1B, Bhairab Mukherjee Lane	North—12/2, Bhairab Mukherjee Lane. South—Southern part of the same premises. East—Bhairab Mukherjee Lane. West—12/1A, Bhairab Mukherjee Lane.
TOTAL AREA :			Total—24.12 Sq m. (.002412 hectare).		

नका० प्रा० 823(अ).—यतः इसमें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) का अर्जन कलकत्ता नगर में मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिये अपेक्षित है।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने इस बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) सीक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है।

अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार अर्जित करने के लिये अपने प्राण्य की घोषणा करती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई हित्ताधिकारी व्यक्ति आपत्ति, यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत यथा विहित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से द्वादश दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि, जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिये अपेक्षित है, को दर्शाने वाली अनुसूची।

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची संख्या 10/14

स्थान का सर्वेक्ष		प्रयोजन जिसके लिये भूमि आदि भूमि आदि, जिसमें उपयोग का अधिकार अपेक्षित हो, का क्षेत्रफल, विवरण तथा उसकी सीमा-रेखा (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार)			
सेट	शीट	अधिकार अपेक्षित है	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विवरण	भूमि की सीमा रेखा
1	2	3	4	5	6
ड्राइंग सं० एम० एम० सी०/डब्ल्यू०/लैंड/276-79	मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण	24.00 वर्गमीटर (.0024 हेक्टेयर)	12/2, भैरव मुखर्जी लेन के नीचे	उत्तर—उसी परिसर का उत्तरी भाग दक्षिण—12/1 बी, भैरव मुखर्जी लेन पूर्व—भैरव मुखर्जी लेन पश्चिम—108, बेलगछिया रोड।	

[सं० 79/एम०टी०पी०/सी०/एन०ए०/44]

S.O. 823(E).—Whereas acquisition of right of user (Underground Right) in the land building, etc. mentioned herein in the Schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the City of Calcutta.

And whereas the Central Government is satisfied that the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the Schedule below are required for public purpose.

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the Schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, in which right of user is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway.

CALCUTTA METROPOLITAN CITY

LAND SCHEDULE NUMBER 10/14

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required	Area, description and boundary of the land etc. in which right of user is required		
Set	Sheet		(UNDERGROUND RIGHT)		
			Area in Sq. M.	Description	Boundary of the land
Drg. No. MRC/W/Land/276-79.		Construction of Metro Railway and other works connected therewith	24.00 Sq. m. (.0024 hectare)	Below 12/2, Bhairab Mukherjee Lane	North—Northern part of the same premises. South—12/1B, Bhairab Mukherjee Lane. East—Bhairab Mukherjee Lane. West—106, Belgachia Road.

[No. 79/MTP/C/LA/44]

का० ब्रा० 824(घ).—यत्न. इसमें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) का अर्जेंट-कल-कला नगर में मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अर्पणित है।

और यत्न. केन्द्रीय सरकार ने इस बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिये अर्पणित है।

अतः केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार प्रजित करने के लिये अपने आशय की घोषणा करती है। नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि को कोई हितधिकारी व्यक्ति प्राप्ति, यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत यथा विहित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एकसौ दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि, जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिये मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिये अर्पणित है, को दर्शाने वाली अनुसूची :

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची सं० 10/15

प्लान का संदर्भ		प्रयोजन जिसके लिये भूमि आदि भूमि आदि, जिसमें उपयोग का अधिकार अर्पणित हो, का क्षेत्रफल, विवरण तथा उसकी सीमा-रेखा अथवा भूमि आदि में उपयोग का अधिकार अर्पणित है		
सेट	शीट	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विवरण	भूमि की सीमा रेखा
भाग I				
डाइंग सं० एम०ब्रा०सी०/इररु/सैड/278-79	मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण	15.00 वर्गमीटर	12/1ए, भैरव मुखर्जी लेन नीचे	उत्तर—उसी परिसर का उत्तरी भाग दक्षिण—भैरव मुखर्जी लेन पूर्व—12/1बी, भैरव मुखर्जी लेन पश्चिम—उसी परिसर का पश्चिमी भाग
भाग II				
-प्रयोजन-	-प्रयोजन-	64.00 वर्गमीटर	12/1ए, भैरव मुखर्जी लेन	उत्तर—106, बेलगछिया रोड दक्षिण—उसी परिसर का दक्षिणी भाग पूर्व—उसी परिसर का पूर्वी भाग तथा 106 बेलगछिया रोड पश्चिम—बेलगछिया रोड
कुल क्षेत्रफल		79.00 वर्गमीटर (.0079 हेक्टेयर)		

[सं० 79/एम०डी०पी०/सी०एल०ए०/45]

S. O. 824(E).—Whereas the acquisition of right of user (Under ground Right) in the land, building, etc. mentioned herein in the schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the city of Calcutta.

And whereas the Central Government is satisfied that the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the Schedule below are required for a public purpose.

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the Schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, in which right of user is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway

CALCUTTA METROPOLITAN CITY
LAND SCHEDULE NUMBER 10/15

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required.	Area, description and boundary of the land etc. in which right of user is required. (Underground Right)		
Set	Sheet		Area in Sq. M.	Description	Boundary of the land
PART I					
Drg. No. MRC/W/ Land/276—79		Construction of Metro Railway & other works connected therewith	15.00 Sq.m.	Below 12/1A, Bhairab Mukherjee Lane	North—Northern part of same premises. South—Bhairab Mukherjee Lane. East—12/1B, Bhairab Mukherjee Lane. West—Western part of the same premises.
PART II					
-do-		-do-	64.00 Sq. m.	Below 12/1A, Bhairab Mukherjee Lane.	North—106, Belgachia Road. South—Southern part of the same premises. East—Eastern part of the same premises and 106, Belgachia Road. West—Balgachia Road.
TOTAL AREA :			79.00 Sq. m. (.0079 Hectare).		

[No. 79/MTP/C/LA/45]

कां० 825(अ).—यनः इसमें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (ग्रण्डर ग्राउण्ड अधिकार) का अर्जन कलकत्ता नगर में मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिये अपेक्षित है,

और यनः केन्द्रीय सरकार ने इन बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (ग्रण्डर ग्राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है।

अतः केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (ग्रण्डर ग्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार अर्जित करने के लिये अगम्य आशय की घोषणा करती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई हित्ताधिकारी व्यक्ति प्राप्त, यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत यथा विहित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख हम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एकसौ दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि, जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिये मेट्रो रेलवे और उससे सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिये अपेक्षित है, को दर्शाने वाली अनुसूची।

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची संख्या 10/17

प्लान का संदर्भ	प्रयोजन जिसके लिये भूमि आदि भूमि आदि, जिसमें उपयोग का अधिकार अपेक्षित हो, का क्षेत्रफल, विवरण तथा उसकी सीमा-रेखा
सेट	शीट
का अधिकार अपेक्षित है।	क्षेत्रफल वर्गमीटर में
विवरण	भूमि की सीमा-रेखा
डाक सं० एम०आर०सी०/ डब्ल्यू०/लेण्ड/276-79	मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण
68.75 वर्ग मीटर (.006875 हेक्टेयर)	106, बेलगछिया रोड के नीचे
	उत्तर—उसी परिसर का उत्तरी भाग दक्षिण—12/1 ए, भैरव मुखर्जी लेन पूर्व—12/2 और 12/1ए, भैरव मुखर्जी लेन पश्चिम—12/1 ए, भैरव मुखर्जी लेन

[सं० 79/एम०टी०पी०/सी/एल०ए०/46]

S. O. 825(E).—Whereas acquisition of right of user (Underground Right) in the land, building, etc. mentioned herein in the schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the City of Calcutta;

And whereas the Central Government is satisfied that the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below are required for public purpose;

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (Act 33 of 1978);

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land in which right of user is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway:

CALCUTTA METROPOLITAN CITY

LAND SCHEDULE NUMBER 10/16

Reference to Plan	Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required	Area, description and boundary of the land etc. in which right of user is required.	UNDERGROUND SIGHT
Set	Sheet	Area in Sq. M.	Description
Drsg. No. MRC/W/Land/ 276-79	Construction of Metro Railway and other works connected therewith	68.75 Sq.m. (.006875 Hectares).	Below 105, Belgachia Road.
			Boundary of the land
			North—Northern part of the same premises.
			South—12/1A, Bhairab Mukherjee Lane.
			East—12/2 & 12/1A, Bhairab Mukherjee Lane.
			West—12/1A, Bhairab Mukherjee Lane.

[No. 79/MTP/C/LA/46]

का०आ० 826(अ).—यतः इसमें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डरग्राउण्ड अधिकार) का अर्जन कलकत्ता नगर मेट्रो रेलवे और उससे सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने इस बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर-ग्राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ;

अतः केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डरग्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1979 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार अर्जित करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है ।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई हितधिकारी व्यक्ति आपत्ति, यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम के धारा 9(1) के अन्तर्गत यथा विहित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ह्मकीस दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है ।

भूमि, जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उससे सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, को दर्शाने वाले अनुसूची

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची संख्या 10/17

प्लान का संदर्भ		प्रयोजन जिसके लिए भूमि आदि अथवा भूमि आदि में उपयोग का अधिकार अपेक्षित है	भूमि आदि, जिसमें उपयोग का अधिकार अपेक्षित हो, का क्षेत्रफल, विवरण तथा उसकी सीमा-रेखा (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार)		
सेट	शीट		क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	विवरण	भूमि की सीमा रेखा
ड्राइंग सं० एम० आर सी०/अण्डरग्राउण्ड/सीड/276-79		मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण	1.50 वर्गमीटर (.00015 हेक्टेयर)	16ए, भैरव मुखर्जी लेन के नीचे	उत्तर—भैरव मुखर्जी लेन दक्षिण—उसी परिसर का दक्षिणी भाग पूर्व—उसी परिसर का पूर्वी भाग पश्चिम—16बी, भैरव मुखर्जी लेन

[संख्या 79/एम०टी०पी०सी०/एल०ए०/47]

S.O. 826(E).—Whereas acquisition of right of user (Underground Right) in the land, building, etc. mentioned herein in the schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the City of Calcutta;

And whereas the Central Government is satisfied that the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below are required for public purpose;

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (Act 33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, in which right of user is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway

CALCUTTA METROPOLITAN CITY LAND SCHEDULE NUMBER 10/17

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required.	Area, description and boundary of the land etc. in which right of user is required.		
Set	Sheet		UNDERGROUND RIGHT		
			Area in Sq. M.	Description.	Boundary of the land.
Drg. No.					
MRC/W/Land 276-79		Construction of Metro Railway and other works connected therewith.	1.50 Sqm. (.00015 hectares).	Below 16A, Bhairab Mukherjee Lane.	North—Bhairab Mukherjee Lane. South—Southern part of the same premises. East —Eastern part of the same premises. West —16B, Bhairab Mukherjee Lane.

[No. 79/MTP/C/LA/47]

क्रा०क्रा० 827(अ).—यतः इसमें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) का अर्जन कलकत्ता नगर में मेट्रो रेलवे और उससे सम्बन्धित अन्य कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने इस बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

अतः केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण), अधिनियम 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त रिकत्यों के अनुसार अर्जित करने के लिए अपने प्राण्य की घोषणा करती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई हिताधिकारी व्यक्ति आपत्ति, यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत यथा विहित सक्षम प्राधिकारों के सम्मुख इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि, जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उससे सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, को बगानि वाली अनुसूची :

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची संख्या 10/18

प्लान का संदर्भ		प्रयोजन जिसके लिए भूमि आदि अथवा भूमि आदि में उपयोग का अधिकार अपेक्षित है।	भूमि आदि, जिसमें उपयोग का अधिकार अपेक्षित है का क्षेत्रफल, विवरण तथा उसकी सीमा-रेखा (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार)		
सेट	शीट		क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	विवरण	भूमि की सीमा रेखा
ड्राइंग नं० एम०आर०सी०/इन्स्यू०/सि०/276-79		मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण	21.00 वर्ग मीटर (.0021 हेक्टेयर)	16बी, भैरव मुखर्जी लेन के नीचे	उत्तर — भैरव मुखर्जी लेन दक्षिण — उसी परिसर का दक्षिण भाग पूर्व — 16ए, भैरव मुखर्जी लेन पश्चिम — 7/ए, रायचरण साधुखान रोड

[संख्या 79/एम०टी०पी०/सी०/एस०ए०/48]

S.O. 827(E).—Whereas acquisition of right of user (Underground Right) in the land, building, etc. mentioned here in the schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the City of Calcutta.

And Whereas the Central Government is satisfied that the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below are required for public purpose.

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (construction of Works) Act 1978 (33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, in which right of user is required for the purpose of construction of

Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway:

CALCUTTA METROPOLITAN CITY

LAND SCHEDULE NUMBER 10/18

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required.	Area, description and boundary of the land etc. in which right of user is required.		
Set	Sheet		Area in Sq. M.	Description	Boundary of the land.
Drg. No. MRC/W/Land/276-79		Construction of Metro Railway and other works connected therewith.	21.00 Sqm. (.0021 hectares)	Below 16B, Bhairab Mukherjee Lane.	North — Bhairab Mukherjee Lane. South — Southern part of the same premises. East — 16A, Bhairab Mukherjee Lane. West — 7/A, Raicharan Sadhukhan Road.

[No. 79/MTP/C/LA/48]

का० आ० 828(अ) —यतः इसमें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (ग्रण्डर राउण्ड अधिकार) का भर्जन कलकत्ता नगर में मेट्रो रेलवे और उससे सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने इस बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (ग्रण्डर राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

अतः केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (ग्रण्डर राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार अर्जित करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई हिताधिकारी व्यक्ति आपत्ति यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत यथा विहित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि जगमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे और उससे सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, को दर्शाने वाली अनुसूची

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची संख्या 10/19

प्लान का संवर्ध	प्रयोजन जिसके लिए भूमि आदि अथवा भूमि आदि में उपयोग का अधिकार अपेक्षित है।	भूमि आदि, जिसमें उपयोग का अधिकार अपेक्षित हो, का क्षेत्रफल विवरण तथा उसकी सीमा-रेखा (ग्रण्डर राउण्ड अधिकार)
सैट सीट		क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) विवरण भूमि की सीमा रेखा
डाइंग सं० एम० आर० सी० / डब्ल्यू/लैंड/270-79	मेट्रो रेलवे तथा उससे सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्य	79.25 वर्ग मीटर 7/ए, रायचरण साधुखान रोड के निम्ने हेक्टेयर) उत्तर—उसी परिसर का उत्तरी भाग और भैरव मुखर्जी लेन दक्षिण—उसी परिसर का दक्षिणी भाग पूर्व — 2/5, रायचरण साधुखान रोड पश्चिम— 1/1/एच और 1/9, रायचरण साधुखान रोड

[संख्या 79/एम०टी०पी०/सी/एल०ए०/49]

S.O. 828(E).— Whereas acquisition of right of user (Underground Right) in the land, building, etc. mentioned herein in the schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the City of Calcutta.

And Whereas the Central Government is satisfied that the right of user (Underground Right) in the Land, building, etc. referred to in the schedule below are required for public purpose.

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of Works) Act 1978 (33 of the 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, in which right of user of required or the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway:

CALCUTTA METROPOLITAN CITY
LAND SCHEDULE NUMBER 10/19

Reference to Plan	Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required.	Area, description and boundary of the land etc. in which right of user is required.
Set Sheet.		Area in Sq. M. Description Boundary of the land
Drg. No. MRC/W/Land/276-79.	Construction of Metro Railway and other works connected therewith.	79.25 Sqm. (0.007925 hectare). Below 7/A, Raicharan Sadhukhan Road. North —Northern part of the same premises and Bhairab Mukherjee Lane. South —Southern part of the same premises. East — 2/5, Raicharan Sadhukhan Road. West — 1/1/H & 1/9, Raicharan Sadhukhan Road.

[No. 79/MTP/C/LA/49]

का० प्रा० 829(अ).—यतः इसमें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) का अर्जन कलकत्ता नगर में मेट्रो रेलवे और उससे सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने इस बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

अतः केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार अर्जित करने के लिए अपने प्राशय की घोषणा करती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई हिताधिकारी व्यक्ति आपत्ति, यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत यथा विहित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि, जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उससे सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, को दर्शाने वाली अनुसूची :

प्लान का संदर्भ		भूमि, आदि जिसमें उपयोग का अधिकार अपेक्षित हो, का क्षेत्रफल विवरण तथा उसकी सीमा-रेखा (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार)		
सेट	शीट	उपयोग का अधिकार अपेक्षित है।	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विवरण
भाग I				
ड्राइंग सं० एम०आर० सी०/उभय०/सी०/276-79		मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण	104.50 वर्गमीटर	2/5, रामचरण साधुखान रोड के नीचे उत्तर—उसी परिसर का उत्तरी भाग और 108, बेलगछिया रोड दक्षिण—उसी परिसर का दक्षिणी भाग पूर्व—रायचरण साधुखान रोड पश्चिम—2/5 और 2, रामचरण साधुखान रोड के बीच खाली जगह
भाग-II				
—यथोक्त—	—यथोक्त—		43.75 वर्गमीटर	2/5, रायचरण साधुखान रोड के नीचे उत्तर—उसी परिसर का उत्तरी भाग दक्षिण—उसी परिसर का दक्षिणी भाग पूर्व—रायचरण साधुखान रोड पश्चिम—108, बेलगछिया रोड
कुल क्षेत्रफल :			148.25 वर्गमीटर 0.014825 हेक्टेयर	

[संख्या 79/एम०टी०पी०/सी०/एल०ए०/50]

S.O.829(E).—Whereas the acqn. of right of user (under ground right) in the land, building, etc. mentioned herein in the schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the city of Calcutta.

And Whereas the Central Government is satisfied that the right of user (underground right) in the land, building, etc. referred to the schedule below are required for a public purpose.

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (underground right) in the land building, etc. referred to in the schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of works) Act 1978 (33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, in which right of user is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected, there with for Calcutta Metro Railway:

CALCUTTA METROPOLITAN CITY
LAND SCHEDULE No 10/20

Reference to Plan	Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required.	Area, description and boundary of (Under Ground Right) the land etc. in which right of user is required.		
Set	Sheet	Area in Sq. M.	Description	Boundary of the land
PART I				
Drg. No. MRC/W/Land/276-79.	Construction of Metro Railway & other works connected herewith.	104.50 Sqm.	Below 2/5, Raicharan Sadhukhan Road.	North —Northern part of the same premises and 108, Belgachia Road. South —Southern part of the same premises. East —Raicharan Sadhukhan Road. West —Vacant space between 2/5 and 2, Raicharan Sadhukhan Road.
PART II				
-do-	-do-	43.75 sqm.	Below 2/5, Raicharan Sadhukhan Road.	North —Northern part of the same premises. South —Southern part of the same premises. East —Raicharan Sadhukhan Road. West —108, Belgachia Road.
TOTAL AREA:		148.25 Sqm. (0.014825 hectare).		

क्रा०घ्रा० 880(घ).—यतः इसमें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (ग्रण्डर प्राउण्ड अधिकार) का अर्जन कलकत्ता नगर में मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने इस बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (ग्रण्डर प्राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

अतः केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (ग्रण्डर प्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार अर्जित करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई हितधिकारी व्यक्ति आपत्ति, यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत यथा विहित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि, जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उससे सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, को यशनि वाली अनुसूची

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची संख्या 10/21

प्लान का संदर्भ		प्रयोजन जिसके लिए भूमि आदि अथवा भूमि अधिकार में उपयोग का अधिकार अपेक्षित है	भूमि आदि, जिसमें उपयोग का अधिकार अपेक्षित हो, का क्षेत्रफल, विवरण तथा उसकी सीमा-रेखा (ग्रण्डर प्राउण्ड अधिकार)		
सेट	शीट		क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विवरण	भूमि की सीमा रेखा
भाग I					
क्राइंग सं० एम०घ्रा०सी०/ बल्सू०/लेण्ड/276-79	मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण।	3.00 वर्गमीटर	108, बेलगछिया रोड के नीचे	उत्तर—उसी परिसर का उत्तरी भाग दक्षिण—2/5, रायचरण साधुखान रोड पूर्व—2/5, रायचरण साधुखान रोड पश्चिम—2/5, रायचरण साधुखान रोड	
भाग II					
—यथोक्त—	—यथोक्त—	104.50 वर्गमीटर	108, बेलगछिया रोड के नीचे	उत्तर—उसी परिसर का उत्तरी भाग दक्षिण—उसी परिसर का दक्षिणी भाग पूर्व—2/5, रायचरण साधुखान रोड पश्चिम—108, बेलगछिया रोड और 1/1/एच, रायचरण साधुखान रोड के बीच, की खाली जगह।	
कुल क्षेत्रफल		107.50 वर्ग मीटर (.01075 हेक्टेयर)			

[संख्या 79/एम०टी०पी०/सी०एल०ए०/51]

S.O.830(E).—Whereas the acqn. of right of user (under ground right) in the land, building, etc. mentioned herein in the schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the city of Calcutta.

And Whereas the Central Government is satisfied that the right of user (underground right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below are required for a public purpose.

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (underground right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of works) Act 1978 (33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, in which right of user is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway:

CALCUTTA METROPOLITAN CITY
LAND SCHEDULE NUMBER 10/21

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required.	Area, description and boundary of the land etc. in which right of user is required. (Under Ground Right)		
Set	Sheet		Area in Sq. M.	Description	Boundary of the land
			PART I		
	Drg. No. MRC/W/Land/276-79.	Construction of Metro Railway & other works connected therewith.	3.00 Sq.m.	Below 108, Belgachia Road.	North —Northern part of the same premises. South —2/5, Raicharan Sadhukhan Road. East —2/5, Raicharan Sadhukhan Road. West —2/5, Raicharan Sadhukhan Road.
			PART II		
	-do-	-do-	104.50 Sq.m.	Below 108, Belgachia Road.	North —Northern part of the same premises. South —Southern part of the same premises. East —2/5, Raicharan Sadhukhan Road. West — Vacant space between 108, Belgachia Road & 1/1/H, Raicharan Sadhukhan Road.
		TOTAL AREA :	107.50 Sq.m. (.01075 hectare).		

[No. 79/MTP/C/LA/51]

कां० अ० 831(अ).—यतः इसमें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (ग्रन्ड राउण्ड अधिकार) का अर्जन कलकत्ता नगर में मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने इस बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (ग्रन्ड राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

अतः केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (ग्रन्ड राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार अर्जन करने के लिए अपने प्राणय की घोषणा करती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई हितधिकारी व्यक्ति आपत्ति, यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत यथा विहित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि, जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उससे सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, को धरानि वाली अनुसूची।

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची संख्या 10/22

प्लान का संदर्भ	प्रयोजन जिसके लिए भूमि आदि धराना भूमि आदि में उपयोग का अधिकार अपेक्षित है	भूमि आदि, जिसमें उपयोग का अधिकार अपेक्षित हो, का क्षेत्रफल, विवरण तथा उसकी सीमा रेखा (ग्रन्ड राउण्ड अधिकार)
सेट	सीट	क्षेत्रफल वर्गमीटर में
		विवरण
		भूमि की सीमा रेखा
ड्राइंग सं० एम०आर०सी०/अस्यू०/लेण्ड/276-79	मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण	3.93 वर्ग मीटर (0.000393 हेक्टेयर)
		परिसर सं० 2 और 2/5, उत्तर—108, बैलगछिया रोड रायचरण साधुखान रोड के बीच की खाली जगह के बीच की खाली जगह के बीच
		दक्षिण—2 और 2/5, रायचरण साधुखान रोड के बीच की खाली जगह। पूर्व—2/5, रायचरण साधुखान रोड पश्चिम—2, रायचरण साधुखान रोड

[संख्या 79/एम० टी० पी०/सी/एल०ए०/52]

S.O. 831(E).—Whereas acquisition of right of user (Underground Right) in the land, building, etc. mentioned herein the Schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the City of Calcutta.

And Whereas the Central Government is satisfied that the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the Schedule below are required for public purpose.

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the Schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, in which right of user is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway.

CALCUTTA METROPOLITAN CITY
LAND SCHEDULE NUMBER 10/22

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required	Area, description and boundary of the land etc. in which right of user is required (Underground Right)		
Set	Sheet		Area in Sq. M.	Description	Boundary of the land
Drg. No.	Construction of Metro	3.93 Sq. m.	Below vacant space	North	—108, Belgachia Road.
MRC/W/Land/	Railway and other works	(.000393	between premises	South	—Vacant space between 2 & 2/5, Raicharan Sadhukhan Road.
276-79	connected therewith	Hectares)	No. 2 & 2/5, Raicharan Sadhukhan Road	East	—2/5, Raicharan Sadhukhan Road.
				West	—2, Raicharan Sadhukhan Road.

[No. 79/MTP/C/LA/52]

का० प्रा० 832(अ):—यतः इसमें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) का प्रयोजन कलकत्ता नगर में मेट्रो रेलवे और उनसे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने इस बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

यतः केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार अंजित करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई हिताधिकारी व्यक्ति प्राप्ति, यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत यथा विहित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि, जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उनसे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, को धनि वाली अनुसूची।

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची संख्या 10/23

प्लान का संदर्भ		प्रयोजन जिसके लिए भूमि आदि प्रस्तावित भूमि आदि में उपयोग का अधिकार अपेक्षित है	भूमि आदि, जिसमें उपयोग का अधिकार अपेक्षित हो, का क्षेत्रफल, विवरण तथा उसकी सीमा-रेखा (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार)
सेट	शीट		
		क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विवरण
ड्राइंग सं० एम०प्रा०सी०/इन्स्यू०/सि० 276-79	मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण।	55.25 वर्गमीटर (.005525 हेक्टेयर)	2, रायचरण साधुखान रोड के नीचे उत्तर—उसी परिसर का उत्तरी भाग दक्षिण—उसी परिसर का दक्षिणी भाग पूर्व—2/5, रायचरण साधुखान रोड पश्चिम—1/1/एच और 1/9 रायचरण साधुखान रोड।

[संख्या 79/एम०टी०पी०/सी/एल०ए०/53]

S.O.832(E).—Whereas acquisition of right of user (Underground Right) in the land, building, etc. mentioned herein the Schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the City of Calcutta.

And Whereas the Central Government is satisfied that the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the Schedule below are required for public purpose.

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the Schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of Works) Act 1978 (33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, in which right of user is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway.

CALCUTTA METROPOLITAN CITY

LAND SCHEDULE NUMBER 10/23

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required	Area, description and boundary of the land etc. in which right of user is required (Underground Right)		
Set	Sheet		Area in Sq. M.	Description	Boundary of the land
Drg. No. MRC/W/Land/276-79		Construction of Metro Railway and other works connected therewith	55.25 Sq. m. (.005525 hectares)	Below 2, Raicharan Sadhukhan Road	North —Northern part of the same premises. South —Southern portion of the same premises. East —2/5, Raicharan Sadhukhan Road. West —1/1/H & 1/9, Raicharan Sadhukhan Road.

[No. 79/MTP/C/LA/53]

का० प्रा० 833(अ).—यतः हमें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) का अर्जन कलकत्ता नगर में मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने इस बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

अतः केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार अर्जित करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई हितधिकारी व्यक्ति आपत्ति, यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत यथा विहित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि, जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, को दर्शाने वाली अनुसूची

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची संख्या 10/24

प्लान का संदर्भ		प्रयोजन जिसके लिए भूमि आदि अथवा भूमि आदि में उपयोग का अधिकार अपेक्षित है	भूमि आदि, जिसमें उपयोग का अधिकार अपेक्षित हो, का क्षेत्रफल, विवरण तथा उसकी सीमा-रेखा (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार)		
सेट	शीट		क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विवरण	भूमि की सीमा रेखा
ड्राइंग सं० एम०आर०सी०/ इन्फ्यू०/सी०/276-79		मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण।	3.36 वर्गमीटर (.000336 हेक्टेयर)	परिसर सं० 2 और 1/1/ एच रायचरण साधुखान रोड के बीच की खाली जगह के नीचे।	उत्तर-- 2 और 1/9, रायचरण साधुखान रोड के बीच की खाली जगह दक्षिण-- 2 और 1/1/एच रायचरण साधुखान रोड के बीच की खाली जगह पूर्व-- 2/5, रायचरण साधुखान रोड पश्चिम-- 1/1/एच, रायचरण साधुखान रोड

[संख्या 79/एम०टी०पी०/सी०एल०ए०/54]

S.O. 833(E).—Whereas acquisition of right of user (Underground Right) in the land, building, etc. mentioned herein in the Schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the City of Calcutta.

And whereas the Central Government is satisfied that the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the Schedule below are required for public purpose.

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the Schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (Act 33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, in which right of user is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway

CALCUTTA METROPOLITAN CITY

LAND SCHEDULE NUMBER 10/24

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required	Area, discription and boundary of the land etc. in which right of user is required		
Set	Sheet		(Under ground Right)		
			Area in Sq. M.	Description	Boundary of the land.
Drg. No. MRC/W/Land/ 276-79		Construction of Metro Railway and other works connected therewith.	3.36 Sqm. (.000336 hectare).	Below vacant space between premises No. 2 & 1/1/ H Raicharan Sadhu- khan Road.	North —Vacant space between 2 & 1/9, Raicharan Sadhukhan Road. South —Vacant space between 2&1/1/H, Raicharan Sadhukhan Road. East —2/5, Raicharan Sadhukhan Road. West —1/1/H, Raicharan Sadhukhan Road.

[No. 79/MTP/C/LA/54]

का० प्रा० 834(अ).—यतः इसमें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, भ्रावि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) का अर्जन—कलकत्ता नगर में मेट्रो रेलवे और उससे सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने इस बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, भ्रावि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

अतः केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत भ्रावि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण), अधिनियम 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार अर्जित करने के लिए अपने प्राशय की घोषणा करती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत भ्रावि का कोई हिताधिकारी व्यक्ति प्राप्यति, यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत यथा विहित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि, जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उससे सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, को वशानि वाली अनुसूची

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची संख्या 10/25

प्लान का संवर्ध		प्रयोजन जिसके लिए भूमि भ्रावि अथवा भूमि भ्रादि में उपयोग का अधिकार अपेक्षित है	भूमि भ्रावि, जिसमें उपयोग का अधिकार अपेक्षित हो, का क्षेत्रफल, विवरण तथा उसकी सीमा-रेखा (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार)		
सेट	सीट		क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विवरण	भूमि की सीमा रेखा
भाग—I					
ड्राइंग सं० एम० आर० सी०/ बम्बू०/लैड/276-79	मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण	14.00 वर्गमीटर	1/1/एच, रायचरण साधु-खान रोड के नीचे	उत्तर—उसी परिसर का उत्तरी भाग दक्षिण—2 और 1/9, रायचरण साधुखान रोड के बीच की खासी जगह पश्चिम—1/9, रायचरण साधुखान रोड	
भाग—II					
—यथोक्त—	—यथोक्त—	45.00 वर्गमीटर	1/1/एच, रायचरण साधु-खान रोड के नीचे	उत्तर—1/1/एच रायचरण साधुखान रोड और 113, बेलगछिया रोड के बीच का रास्ता दक्षिण—उसी परिसर का दक्षिणी भाग पूर्व—1/1/एच, रायचरण साधुखान रोड और 108, बेलगछिया रोड के बीच का रास्ता पश्चिम—1/1 एच और 1/1 एच 3, रायचरण साधुखान रोड के बीच का रास्ता	
कुल क्षेत्रफल :		59.00 वर्गमीटर (.0089 हेक्टेयर)			

[संख्या 79/एम०टी०पी०/सी/एच०ए०/55]

S.O. 834(E).—Whereas the acqn. of right of user (Underground Right) in the land, building, etc. mentioned herein in the Schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the city of Calcutta.

And whereas the Central Government is satisfied that the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the Schedule below are required for a public purpose.

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (underground right) in the land, building, etc. referred to in the Schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of works) Act, 1978 (Act 33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land in which right of user is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway
CALCUTTA METROPOLITAN CITY
LAND SCHEDULE NUMBER 10/25

Reference to Plan	Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required	Area, description and boundary of the land etc. in which right of use is required.	(Under Ground Right)	
Set	Sheet	Area in Sq. M.	Description	Boundary of the land
Part I				
Drg. No. MRC/W/Land/276-79	Construction of Metro Railway & other works connected therewith.	14.00 Sqm.	Below 1/1/H, Raicharan Sadhukhan Road.	North—Northern part of the same premises. South—? & 1/9, Raicharan Sadhukhan Road. East—Vacant space between 1/1/H & 2, Raicharan Sadhukhan Road. West—1/9, Raicharan Sadhukhan Road.
Part II				
-do-	-do-	45.00 Sqm.	Below 1/1/H, Raicharan Sadhukhan Road.	North—Passage between 1/1/H, Raicharan Sadhukhan Road & 113, Belgachia Road. South—Southern part of the same premises. East—Passage between 1/1/H, Raicharan Sadhukhan Road, & 108, Belgachia Road West—Passage between 1/1/H & 1/1/H/3, Raicharan Sadhukhan Road.
Total Area.		59.00 Sq m. (.0059 hectare).		

[No. 79/MTP/C/LA/55]

का०आ० 835(अ).—यतः हमें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, हमारा, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) का अर्जन कलकत्ता नगर में मेट्रो रेलवे और उससे सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने इस बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, हमारा, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

अतः केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, हमारा आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार अर्जित करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, हमारा आदि का कोई हिताधिकारी व्यक्ति आपत्ति, यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम के धारा 9(1) के अन्तर्गत यथा विहित मक्षम प्राधिकारी के सम्मुख इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि, जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उससे सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, को दर्शाने वाली अनुसूची

कलकत्ता महानगर
भूमि अनुसूची संख्या 10/26

प्लान का संदर्भ	प्रयोजन जिसके लिए भूमि आदि अथवा भूमि आदि में उपयोग का अधिकार अपे- क्षित है।	भूमि आदि, जिसमें उपयोग का अधिकार अपेक्षित हो, का क्षेत्रफल विवरण तथा उसकी सीमा-रेखा (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार)		
सेट	शीट	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विवरण	भूमि की सीमा रेखा
डाइंग सं० एम० आर० सी०/ हब्ल्यू०/लैंड/276-79	मेट्रो रेलवे तथा उससे संबन्धित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण	40.75 वर्गमीटर (.004075 हेक्टेयर)	1/9, रायचरण साधुखान रोड के नीचे	उत्तर—1/6 और 1/1 एच, रायचरण साधुखान रोड दक्षिण—उसी परिसर का दक्षिण भाग पूर्व—2, रायचरण, साधुखान रोड और 1/1/एच रायचरण साधुखान रोड पश्चिम—1/6, रायचरण साधुखान रोड

[संख्या 79/एम०टी०पी०/सी०/एल०ए०/56]

S.O. 835(E). Whereas acquisition of right of user (Underground Right) in the land, building etc., mentioned herein the Schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the City of Calcutta.

And whereas the Central Government is satisfied that the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the Schedule below are required for public purpose.

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the Schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (Act 33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, in which right of user is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway

**CALCUTTA METROPOLITAN CITY
LAND SCHEDULE NUMBER 10/26**

Reference to Plan Set Sheet	Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required	Area, description and boundary of the land etc. in which right of user is required. (Underground Right)		
		Area in Sq. M.	Description	Boundary of the land
Dr. No. MRC/ W/Land/ 276-79.	Construction of Metro Railway and other works connected therewith.	40.75 Sqm. (.004075 hectare).	Below 1/9, Raicharan Sadhukhan Road.	North—1/6 & 1/1/H, Raicharan Sadhukhan Road. South—Southern part of the same premises. East—2, Raicharan Sadhukhan Road and 1/1/H, Raicharan Sadhukhan Road. West—1/6, Raicharan Sadhukhan Road.

[No. 79/MTP/C/LA/56]

का०प्र० 836(प्र).—यतः हममें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (ग्रण्डर ग्राउण्ड अधिकार) का अर्जन कलकत्ता नगर में मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने इस बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (ग्रण्डर ग्राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

अतः केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (ग्रण्डर ग्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अंतर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार अर्जित करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई हिताधिकारी व्यक्ति प्राप्त, यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अंतर्गत यथा विहित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इसकी प्रति की भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि, जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, को दर्शाने वाली अनुसूची

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची संख्या 10/27

प्लान का संदर्भ		प्रयोजन जिसके लिए भूमि भूमि आदि, जिसमें उपयोग का अधिकार अपेक्षित हो, का क्षेत्रफल, विवरण तथा उसकी सीमा			
सेट	सीट	आदि अथवा भूमि आदि में उपयोग का अधिकार अपेक्षित है	रेखा	(ग्रण्डर ग्राउण्ड अधिकार)	
			क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विवरण	भूमि की सीमा रेखा
भाग—I					
ड्राइंग सं० एम०आर०सी०/ डब्ल्यू०लैंड/276-79		मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण	123.75 वर्गमीटर	1/6, रायचरण साधुखान रोड के नीचे	उत्तर—उसी परिसर का उत्तरी भाग दक्षिण—उसी परिसर का दक्षिणी भाग और 1/9 रायचरण साधुखान रोड पूर्व—1/9 रायचरण साधुखान रोड पश्चिम—लेन (रायचरण साधुखान रोड)
भाग—II					
—यथोक्त—		—यथोक्त—	3.00 वर्गमीटर	1/6, रायचरण साधुखान रोड के नीचे	उत्तर—1/1 एच, रायचरण साधुखान रोड दक्षिण—उसी परिसर का दक्षिणी भाग और लेन पूर्व—1/1एच (रायचरण साधुखान रोड) पश्चिम—लेन (रायचरण साधुखान रोड)
		कुल क्षेत्रफल :	126.75 वर्गमीटर (.012675 हेक्टेयर)		

[संख्या 79/एम०टी०पी०/सी/एल०ए०/57]

S.O. 836(E).—Whereas acquisition of right of user (underground right) in the land, building, etc. mentioned herein in the schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the city of Calcutta.

And whereas the Central Government is satisfied that the right of user (underground right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below are required for a public purpose.

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (underground right) in the land building, etc. referred to in the schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways, (Construction of works) Act 1978 (Act 33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, in which right of user is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway

CALCUTTA METROPOLITAN CITY
LAND SCHEDULE NUMBER 10/27

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required.	Area, description and boundary of the land etc. in which right of user is required.		(Underground Right)
Set	Sheet		Area in Sq. M.	Description	Boundary of the land
PART I					
Drg. No. MPC/ W/Land/ 276—79.		Construction of Metro Railway & other works connected therewith.	123.75 Sqm.	Below 1/6, Raicharan Sadhukhan Road.	North—Northern part of the same pre- mises. South—Southern part of the same pre- mises and 1/9, Raicharan Sadhu- khan Road. East—1/9, Raicharan Sadhukhan Road. West—Lane (Raicharan Sadhukhan Road).
PART II					
-do-		-do-	3.00 Sqm.	Below 1/6, Raicharan Sadhukhan Road.	North—1/1/H, Raicharan Sadhukhan Road. South—Southern part of the same pre- mises and lane. East—1/1/H, (Raicharan Sadhukhan Road). West—Lane (Raicharan Sadhukhan Road).
Total Area:			126.75 Sqm. (.012675 hec.)		

[No. 79/MTP/C/LA/57]

क्रा०स्रा० 837(प्र).—यतः इसमें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) का अर्जन कलकत्ता नगर में मेट्रो रेलवे और उससे संबन्धित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने इस बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

अतः केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार अर्जित करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई हिताधिकारी व्यक्ति आपत्ति, यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम के धारा 9(1) के अन्तर्गत यथा विहित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि, जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उससे सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, को दर्शाने वाली अनुसूची:

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची संख्या 10/28

प्लान का संदर्भ		प्रयोजन जिसके लिए भूमि	भूमि, आदि जिसमें उपयोग का अधिकार अपेक्षित हो, का क्षेत्रफल विवरण तथा उसकी सीमा-रेखा (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार)		
सेट	सीट	आदि यथा भूमि आदि में उपयोग का अधिकार अपेक्षित है	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विवरण	भूमि की सीमा रेखा
भाग I					
ड्राइंग सं० एम०धारा० सी०/डब्ल्यू०/लेड/276-79		मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण	27.50 वर्गमीटर	1/1/एच/3, रायचरण साधु-खान रोड के नीचे	उत्तर—उसी परिसर का उत्तरी भाग दक्षिण—रायचरण साधुखान रोड पूर्व—लेन (रायचरण साधुखान रोड) पश्चिम—रायचरण साधुखान रोड
भाग II					
—यथोक्त—		—यथोक्त—	148.50 वर्गमीटर	1/1/एच/3, रायचरण साधु-खान रोड के नीचे	उत्तर—उसी परिसर का उत्तरी भाग और 1/1/एच/3 रायचरण साधुखान रोड तथा 113, बेलगछिया रोड के बीच की खाली जगह दक्षिण—उसी परिसर का दक्षिणी भाग पूर्व :—लेन (रायचरण साधुखान रोड) पश्चिम—रायचरण साधुखान रोड
कुल क्षेत्रफल :			176.00 वर्गमीटर (.0176 हेक्टेयर)		

[संख्या 79/एम०टी०पी०/सी०/एल०ए०/58]

S.O. 837(E).—Whereas the acqn. of right of user (underground right) in the land, building, etc. mentioned herein in the schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the city of Calcutta.

And whereas the Central Government is satisfied that the right of user (underground right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below are required for a public purpose.

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (underground right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of works) Act 1978 (Act 33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, in which right of user is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway

**CALCUTTA METROPOLITAN CITY
LAND SCHEDULE NUMBER 10/28**

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required.	Area, description and boundary of the land etc. in which right of user is required		(Underground Right)
Set	Sheet		Area in Sq. M.	Description	Boundary of the land
PART I					
Drg. No. MRC/ W/Land/ 276—79		Construction of Metro Railway & other works connected therewith.	27.50 Sqm.	Below 1/1/H/3, Raicharan Sadhukhan Road.	North—Northern part of the same premises. South—Raicharan Sadhukhan Road. East—Lane (Raicharan Sadhukhan Road). West—Raicharan Sadhukhan Road.
-do-	-do-		Part II 148.50 Sqm.	Below 1/1/H/3, Raicharan Sadhukhan Road.	North—Northern part of the same premises and vacant space between 1/1/H/3, Raicharan Sadhukhan Road and 113, Belgachia Road. South—Southern part of the same premises. East—Lane (Raicharan Sadhukhan Road). West—Raicharan Sadhukhan Road.
Total Area:			176.00 Sqm. (.0176 hectare).		

[No. 79/MTP/C/LA/58]

का०आ० 838(अ).—यसः इसमे नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (ग्रण्डर ग्राउण्ड अधिकार) का अर्जन कलकत्ता नगर में मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

और यह केन्द्रीय सरकार ने इस बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (ग्रण्डर ग्राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

यसः केन्द्रीय सरकार पत्रद्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (ग्रण्डर ग्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार अर्जन करने के लिए अपने प्राधिकार की घोषणा करती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई हितधिकारी व्यक्ति आपत्ति, यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम के धारा 9(1) के अन्तर्गत यथा विहित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि, जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, का वर्णन बाकी अनुसूची :

**कलकत्ता महानगर
भूमि अनुसूची संख्या 10/29**

प्लान का संदर्भ		प्रयोजन जिसके लिए भूमि	भूमि आदि, जिसमें उपयोग का अधिकार अपेक्षित है, का क्षेत्रफल विवरण तथा उसकी सीमा-रेखा (ग्रण्डर ग्राउण्ड अधिकार)		
सेट	शीट	अथवा भूमि आदि में उपयोग का अधिकार अपेक्षित है।	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विवरण	भूमि की सीमा रेखा
भाग 1					
ड्राइंग सं० एम०आर० सी०/ इस्यू०/नं०/ 276-79		मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण	55.00 वर्गमीटर	48, कैनाल वेस्ट रोड के नीचे	उत्तर—उसी परिसर का उत्तरी भाग दक्षिण—उसी परिसर का दक्षिणी भाग पूर्व—कैनाल वेस्ट रोड पश्चिम—48, कैनाल वेस्ट रोड और 28, आर०जी० कार रोड के बीच का रास्ता

1	2	3	4	5	6
भाग 2					
ड्राइंग सं० एम०आर०जी/ ब्ल्यू०/लैंड/276-79	मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित निर्माण कार्यों का निर्माण कुल क्षेत्रफल	52.25 बर्गमीटर 107.25 वर्ग मीटर (.010725 हेक्टेयर)	48, कैनाल वेस्ट रोड के नीचे	उत्तर—उमी परिसर का उत्तरी भाग दक्षिण—उमी परिसर का दक्षिणी भाग दक्षिण—उमी परिसर का दक्षिणी भाग पूर्व—कैनाल वेस्ट रोड पश्चिम—48, कैनाल वेस्ट रोड और 28, आर०जी० कार रोड के बीच का रास्ता	
[संख्या 79/एम०टी०जी०/मी०/एल०ए०/59]					

S.O.838(E).—Whereas the acquisition of right of user (Underground Right) in the land, building, etc. mentioned herein in the Schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the City of Calcutta.

And whereas the Central Government is satisfied that the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the Schedule below are required for a public purpose.

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the Schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of Works) Act 1978 (33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, in which right of user is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway.

CALCUTTA METROPOLITAN CITY

LAND SCHEDULE NUMBER 10/29

Reference to plan		Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required	Area, description and boundary of the land etc. which right of user is required (Under Ground Right)		
Set	Sheet		Area in Sq.M.	Description	Boundary of the land
Drg. No. MRC/ W/Land 276—79		Construction of Metro Railway & other works connected therewith	Part I 55.00 Sqm.	Below 48, Canal west Road	North—Northern part of the same pre- mises. South—Southern part of the same pre- mises. East—Canal west Road. West—Passage between 48, Canal west Road & 28, R.G. Kar Road.
-do-	-do-		Part II 52.25 Sqm.	Below 48, Canal west Road	North—Northern part of the same pre- mises. South—Southern part of the same pre- mises. East—Canal west Road. West—Passage between 48, Canal West Road & 28, R.G. Kar Road.
Total Area:			107.25 Sqm. (.010725— hectare)		

[No. 79/MTP/C/LA/59]

का०आ० 839(अ).—यतः इसमें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) का अर्जन कलकत्ता नगर में मेट्रो रेलवे और उससे सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्यों के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने इस बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

अतः केन्द्रीय सरकार एन०द्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार अर्जित करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है।

तोचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई हितधिकारी व्यक्ति प्राप्त, यदि कोई हो तो उक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तिम यथा विहित मध्य प्राधिकारी के सम्मुख द्वा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एकसित दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि, जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उससे सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अर्पित है, को दर्शाने वाली अनुसूची।

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची संख्या 10/30

प्लान का संदर्भ		प्रयोजन जिसके लिए भूमि आदि अथवा भूमि आदि में उपयोग का अधिकार अर्पित है।		भूमि आदि, जिसमें उपयोग का अधिकार अर्पित है, का क्षेत्रफल विवरण तथा उसकी सीमा-रेखा (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार)	
सेट	शीट		क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विवरण	भूमि की सीमा रेखा
भाग 1					
ड्राइंग सं० एम०आर०सी०/इन्फ्र०/लेड/276-79		मेट्रो रेलवे तथा उससे सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण	17.87 वर्गमीटर	48, कैनाल वेस्ट रोड और 28, आर० जी० कार रोड के बीच के रास्ते के नीचे	उत्तर—48, कैनाल वेस्ट रोड और 28, आर० जी० कार रोड के बीच का रास्ता दक्षिण—48, कैनाल वेस्ट रोड और 28, आर० जी० कार रोड के बीच का रास्ता पूर्व—48, कैनाल वेस्ट रोड पश्चिम—28, आर० जी० कार रोड
भाग 2					
—यथोक्त—	—यथोक्त—		16.50 वर्गमीटर	48, कैनाल वेस्ट रोड और 28, आर० जी० कार रोड के बीच के रास्ते के नीचे	उत्तर—48, कैनाल वेस्ट रोड और 28, आर० जी० कार रोड के बीच का रास्ता दक्षिण—48, कैनाल वेस्ट रोड और 28, आर० जी० कार रोड के बीच का रास्ता पूर्व—48, कैनाल वेस्ट रोड पश्चिम—28, आर० जी० कार रोड
		कुल क्षेत्रफल :	34.37 वर्गमीटर (.003437 हेक्टेयर)		

[संख्या 69/एम०टी०पी०/सी/एल०ए०/60]

S.O. 839(E).—Whereas the acquisition of right of user (Underground Right) in the land, building, etc. mentioned herein in the Schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the City of Calcutta.

And whereas the Central Government is satisfied that the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the Schedule below are required for a public purpose.

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the Schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, in which right of user is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway.

CALCUTTA METROPOLITAN CITY
LAND SCHEDULE NUMBER 10/30

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required	Area, description and boundary of the land etc. in which right of user is required (Under Ground Right)		
Set	Sheet		Area in Sq.M.	Description	Boundary of the land
Drg. No. MRC/W/Land/276-79		Construction of Metro Railway & other works connected therewith	Part I 17.87 Sqm.	Below Passage between 48, Canal West Road & 28, R.G. Kar Road	North—Passage between 48, Canal West Road, & 28, R.G. Kar Road. South—Passage between 48, Canal West Road and 28, R.G. Kar Road. East—48, Canal West Road. West—28, R.G. Kar Road.
-du-	-do-		Part II 16.50 Sqm.	Below Passage between 48, Canal West Road & 28, R.G. Kar Road	North—Passage between 48, Canal West Road & 28, R.G. Kar Road. South—Passage between 48, Canal Road and 28, R.G. Kar Road. East—48, Canal West Road. West—28, R.G. Kar Road.
		Total Area:	34.37 Sqm. (.003437 hectare).		

[No. 79/MTP/C/LA/60]

कां० 840(आ).—जहाँ नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डरग्राउण्ड अधिकार) का अर्जन कलकत्ता नगर में मेट्रो रेलवे और सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

और यहाँ केन्द्रिय सरकार ने इस बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डरग्राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

अतः केन्द्रीय सरकार पुनर्द्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डरग्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार प्रजित करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई हितधिकारी व्यक्ति आपत्ति, यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत यथा विहित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख इस अधिनियम के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि, जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उससे सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, को दर्शाने वाली अनुसूची :

कलकत्ता महानगर
भूमि अनुसूची संख्या 10/31

प्लान का संदर्भ	प्रयोजन जिसके लिए भूमि आदि अथवा भूमि आदि में उपयोग का अधिकार अपेक्षित है।	भूमि आदि, जिसमें उपयोग का अधिकार अपेक्षित हो, का क्षेत्रफल तथा उसकी सीमा-रेखा (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार)	विवरण	भूमि की सीमा रेखा
सेट	सीट	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विवरण	भूमि की सीमा रेखा
भाग 1				
ड्राइंग सं० एम०आर० सी० डब्ल्यू०/वैंड/276-79	मेट्रो रेलवे तथा उससे सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण	140.75 वर्गमीटर	28. आर० जी० कार रोड के नीचे	उत्तर—उसी परिसर का उत्तरी भाग दक्षिण—उसी परिसर का दक्षिणी भाग पूर्व—48, कैनाल वेस्ट रोड और 28, आर०जी० कार रोड के बीच का रास्ता पश्चिम—26 सी और 26 डी० आर० जी० कार रोड
भाग 2				
—यथोक्त—	—यथोक्त—	117.75 वर्गमीटर	28, आर० जी० कार रोड के नीचे	उत्तर—उसी परिसर का उत्तरी भाग दक्षिण—उसी परिसर का दक्षिणी भाग पूर्व—48, कैनाल वेस्ट रोड और 28, आर०जी० कार रोड के बीच का रास्ता पश्चिम—26 ए और 26 बी, आर०जी० कार रोड
कुल क्षेत्रफल :		258.00 वर्गमीटर (.0258 हेक्टेयर)		

[सं० 79/एम०टी०पी०/सी/एल०ए०/61]

S.O. 840(E).—Whereas the acqn. of right of user (underground right) in the land, building, etc. mentioned herein in the schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the city of Calcutta.

And Whereas the Central Government is satisfied that the right of user (underground right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below are required for a public purpose.

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (underground right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of works) Act, 1978 (Act 33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9 (1) of the Act.

Schedule showing the land, in which right of user is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway :

CALCUTTA METROPOLITAN CITY
LAND SCHEDULE NUMBER 10/31

Referred to plan	Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required	Area, description and boundry of the land etc. in which right of user is required.	UNDERGROUND RIGHT	
Set	Sheet	Are in sq.M.	Description	Boundary of the land
PART I				
Drg. No.MRC/W/Land/276-79.	Construction of Metro Railway & other works connected therewith.	140.25 Sqm.	Below 28, R. G. Kar Road	North—Northern part of the same premises. South—Southern part of the same premises. East—Passage between 48, canal west Road, & 28, R. G. Kar Road. West—26C & 26D, R. G. Kar Road.

1	2	3	4	5	6
PART II					
Dr- No. MRC/ W/Land/276-79	Construction of Metro Railway & other works connected therewith.	117.75 Sqm.	Below 28, R.G. Kar Road.	North—Northern part of the premises. South—Southern part of the same premises. East—Passage between 48 canal west Road & 28, R. G. Kar Road. West—26A & 26 B, R. G. Kar Road.	
TOTAL AREA :		258.00 Sqm. (.0258 Hectare)			

[No. 79/MTP/C/LA/61]

आ०आ० 841(अ).—यतः इसमें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) का अर्जन कलकत्ता नगर में मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने इस बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

घटः केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार अर्जित करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई हितधिकारी व्यक्ति आपत्ति, यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत यथा विहित सख्त प्राधिकारी के सम्मुख इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एकसौ दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, को दर्शाने वाली अनुसूची :

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची संख्या 10/32

प्लान का संख्या	प्रयोजन जिसके लिए भूमि आदि अथवा भूमि प्राप्ति में उपयोग का अधिकार अपेक्षित है।	भूमि आदि, जिसमें उपयोग का अधिकार अपेक्षित हो, का क्षेत्रफल विवरण तथा उत्तरी सीमा रेखा (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार)	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विवरण	भूमि की सीमा रेखा
सेट	सीट				
भाग 1					
डाइंग स० एम०आर० सी०/ उल्डू०/वि०/276-79	मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण	3.75 वर्गमीटर	26 ए और 26 बी, आर० जी० कार रोड के बीच	उत्तर—उसी परिसर का उत्तरी भाग दक्षिण—26 ए, 26 बी और 26 सी, 26 डी, आर० जी० कार रोड के बीच का रास्ता पूर्व—उसी परिसर का पूर्वी भाग पश्चिम—24 ए, 24 बी और 26 ए, 26 बी, आर० जी० कार रोड के बीच का रास्ता	
—यथोक्त—	—यथोक्त—	79.75 वर्गमीटर	26 ए और 26 बी, आर० जी० कार रोड के बीच	उत्तर—उसी परिसर का उत्तरी भाग और आर० जी० कार रोड दक्षिण—उसी परिसर का दक्षिणी भाग पूर्व—28. आर० जी० कार रोड पश्चिम—26 ए, 26 बी और 24 ए, 24 बी, आर० जी० कार रोड के बीच का रास्ता	
कुल क्षेत्रफल :		83.50 वर्गमीटर (.008350 हेक्टेयर)			

[संख्या 79/एम०टी०पी०/सी/एल०ए०/62]

S.O. 841(E).—Whereas the acqn. of right of user (underground right) in the land, building, etc. mentioned herein in the schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the city of Calcutta.

And Whereas the Central Government is satisfied that the right of user (underground right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below are required for a public purpose.

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (underground right) in the land building, etc. referred to in the schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of works) Act, 1978 (Act 33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, in which right of user is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway :

CALCUTTA METROPOLITAN CITY
LAND SCHEDULE NUMBER 10/32

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required	Area, description and boundary of land etc. which right of user is required. (UNDERGROUND RIGHT)		
Set	Sheet		Area in Sq.M.	Description	Boundary of the land
Drg. No.MRC/W/Land/276-79		Construction of Metro Railway & other works connected therewith.	PART I 3.75 sqm.	Below 26A & 26B, R.G. Kar Road.	North—Northern part of the same premises. South—Passage between 26A, 26B and 26C, 26D, R.G. Kar Road. East—Eastern part of the same premises. West—Passage between 24A, 24B & 26A, 26B, R.G. Kar Road.
-do-		-do-	PART II 79.75 Sqm.	Below 26A & 26B, R.G. Kar Road.	North—Northern part of the same premises and R. G. Kar Road. South—Southern part of the same premises. East—28, R. G. Kar Road. West—Passage between 26A, 26B and 24A, 24B, R. G. Kar Road.
TOTAL AREA :			83.50 Sqm. (.008350 hectare).		

[No. 79/MTP/C/LA/62]

का०आ० 842(अ).—यतः इसमें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) का अर्जन कलकत्ता नगर में मेट्रो रेलवे और उससे संबन्धित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

श्री. यतः केन्द्रीय सरकार ने इस बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

अतः केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार अर्जित करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई हिताधिकारी व्यक्ति आपत्ति, यदि कोई हो, तो उस अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत यथाविहित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एकसौ दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि, जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उससे संबन्धित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, को यथानि वाली अनुसूची :

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची संख्या 10/33

प्लान का संदर्भ		प्रयोजन जिसके लिए भूमि आदि प्रयुक्त भूमि आदि में उपयोग का अधिकार अपेक्षित है	भूमि आदि, जिसमें उपयोग का अधिकार अपेक्षित हो, का क्षेत्रफल विवरण तथा उसकी सीमा-रेखा (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार)		
सेट	शीट		क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विवरण	भूमि की सीमा रेखा
डाईंग सं० एम०आर० सी० डब्ल्यू०/सैड/276-79		मेट्रो रेलवे तथा उससे संबन्धित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण	52.25 वर्गमीटर (.005225 हेक्टेयर)	26 सी और 26 डी आर० जो कार रोड के नीचे	उत्तर—26 ए, 26 बी और 26 सी, 26 डी, आर० जो कार रोड के बीच का रास्ता दक्षिण—उसी परिसर का दक्षिणी भाग पूर्व—28, आर०जी० कार रोड पश्चिम—28 सी और 26 बी तथा 26 सी, 24 डी, आर०जी० कार रोड के बीच का रास्ता

[संख्या 79/एम०टी०पी०/सी/एस०ए०/63]

S.O. 842(E).—Whereas acquisition of right of user (Underground Right) in the land, building, etc. mentioned herein in the schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the City of Calcutta.

And Whereas the Central Government is satisfied that the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below are required for public purpose.

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (Act 33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, in which right of user is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway :

CALCUTTA METROPOLITAN CITY
LAND SCHEDULE NUMBER 10/33

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required	Area, description and boundary of the land etc. in which right of user is required. (UNDERGROUND RIGHT)		
Set	Sheet		Area in Sq.M.	Description	Boundary of the land
	Drg. No.MRC/ W/Land/276-79	Construction of Metro Railway and other works connected therewith.	52.25 Sqm. (.005225 hectare).	Below 26C & 26D, R.G. Kar Road.	North—Passage between 26A, 26B & 26C, 26D, R. G. Kar Road. South—Southern part of the same premises. East—28, R.G. Kar Road. West—Passage between 26C & 26D and 24C, 24D, R.G. Kar Road.

[No. 79/MTP/C/LA/63]

का०आ० 843(अ).—यतः इसमें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (ग्रण्डर ग्राउण्ड अधिकार) का अर्जन कलकत्ता नगर में मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने इस बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (ग्रण्डर ग्राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

अतः केन्द्रीय सरकार एन०द्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (ग्रण्डर ग्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों के अनुसार अर्जित करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई हिताधिकारी व्यक्ति आपत्ति, यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत यथा विहित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि, जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, को दर्शाने वाली अनुसूची :

कलकत्ता महानगर
भूमि अनुसूची संख्या 10/34

प्लान का संदर्भ		प्रयोजन जिसके लिए भूमि आदि अथवा भूमि आदि में उपयोग का अधिकार अपेक्षित है।	भूमि आदि, जिसमें उपयोग का अधिकार अपेक्षित हो, का क्षेत्रफल विवरण तथा उसकी सीमा रेखा (ग्रण्डर ग्राउण्ड अधिकार)		
सेट	सीट		क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विवरण	भूमि की सीमा रेखा
भाग I					
डाईंग सं० एम०आर० सी० डब्ल्यू०/सी०/276-79	मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण	64.50 वर्गमीटर	26 ए, 26 बी और 26 सी, 26 डी तथा 24 ए, 24 बी और 24 सी, 24 डी आर० जी० कार रोड के बीच के रास्ते के नीचे	उत्तर-- 26 ए, 26 बी तथा 24 ए, 24 बी, आर० जी० कार रोड दक्षिण-- 26 सी, 26 डी और 24 ए, 24 बी एवं 34 सी, 24 डी आर० जी० कार रोड के बीच का रास्ता पूर्व-- 26 ए, 26 बी एवं 26 सी, 26 डी, आर० जी० कार रोड के बीच का रास्ता पश्चिम-- 24 ए, 24 बी तथा 24 सी, 24 डी आर जी कार रोड के बीच का रास्ता	
भाग II					
- यथोक्त -	- यथोक्त -	3.75 वर्गमीटर	26 ए, 26 बी एवं 26 सी, 26 डी और 24 ए, 24 बी एवं 24 सी, 24 डी, आर० जी० कार रोड के बीच के रास्ते के नीचे	उत्तर-- आर० जी० कार रोड दक्षिण-- 24 ए, 24 बी और 26 ए, 26 बी आर० जी० कार रोड के बीच का रास्ता पूर्व-- 26 ए, 26 डी आर० जी० कार रोड पश्चिम-- 24 ए, 24 डी, आर० जी० कार रोड	
	कुल क्षेत्रफल :	68.24 वर्गमीटर (.006825 हेक्टेयर)			

[संख्या 79/एम०टी०पी०/सी०/एल०ए०/64]

S.O.843(E).—Whereas the acquisition of right of user (underground right) in the land, building, etc. mentioned herein in the schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the city of Calcutta.

And Whereas the Central Government is satisfied that the right of user (underground right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below are required for a public purpose.

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (underground right) in the land building, etc. referred to in the schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of works) Act 1978 (Act 33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, building, etc. in which right of user is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway :

**CALCUTTA METROPOLITAN CITY
LAND SCHEDULE NUMBER 10/34**

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required	Area, description and boundary of the land etc. in which right of user is required (UNDERGROUND RIGHT)		
Set	Sheet		Area in Sq.M.	Description	Boundary of the land
Org.No.MRC/ W/Land/276-79		Construction of Metro Railway & other works connected therewith.	PART I 64.52 Sqm.	Below passage between 26A, 26B & 26C, 26D and 24A, 24B, & 24C, 24D R. G. Kar Road.	North—26A, 26B & 24A, 24B R. G. Kar Road. South—26C, 26D & passage between 24A, 24B & 34C, 24D R. G. Kar Road. East—Passage between 26A, 26B & 26C, 26D R. G. Kar Road. West—Passage between 24A, 24B & 24C, 24D R. G. Kar Road.
-do-	-do-		PART II 3.75 Sqm.	Below passage between 26A, 26B & 26C, 26D and 24A, 24B & 24C, 24D, R. G. Kar Road.	North—R.G. Kar Road. South—Passage between 24A, 24B & 26A, 26B R. G. Kar Road East—26A, 26B R. G. Kar Road. West—24A, 24B R.G. Kar Road.
TOTAL AREA :			68.25 Sqm. (.006825 hectare).		

[No. 79/MTP/C/A/L/64]

का०आ० 844(अ).—यतः इसमें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) का अर्जन कलकत्ता नगर में मेट्रो रेलवे और उससे संबन्धित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने इस बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

अतः केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार अर्जित करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई हिताधिकारी व्यक्ति आपत्ति, यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत यथा विहित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उससे संबन्धित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, को दर्शाने वाली अनुसूची :

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची संख्या 10/35

प्लान का संदर्भ		प्रयोजन जिसके लिए भूमि आदि अथवा भूमि आदि में उपयोग का अधिकार अपेक्षित हो	भूमि आदि जिसमें उपयोग का अधिकार अपेक्षित हो, का क्षेत्रफल विवरण तथा उसकी सीमा-रेखा (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार)		
सेट	शीट		क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विवरण	भूमि की सीमा रेखा
भाग I					
ड्राइंग सं० एम०आर० सी० डब्ल्यू०/लैंड/276-79		मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण	84.82 वर्गमीटर	24ए, 24बी आर०जी० कार रोड के नीचे	उत्तर—उसी परिसर का उत्तरी भाग दक्षिण—24ए, 24बी और 24सी, 24डी, आर०जी० कार रोड के बीच का रास्ता पूर्व—24ए, 24बी और 26ए, 26बी आर०जी० कार रोड के बीच का रास्ता पश्चिम—22, आर० जी० कार रोड

भाग II				
-यथोक्त-	-यथोक्त-	2.00 वर्गमीटर	24ए, 24बी, आर जी कार रोड के नीचे	उत्तर-—आर जी कार रोड दक्षिण-—उसी परिसर का दक्षिणी भाग पूर्व-—24ए, 24बी और 26ए, 26बी, आर जी कार रोड के बीच का रास्ता पश्चिम-—उसी परिसर का पश्चिमी भाग
	कुल क्षेत्रफल :	86.82 वर्गमीटर (.008682 हेक्टेयर)		

[संख्या 79/एम०टी०पी०सी/एन०ए०/65]

S.O.844(E).—Whereas the acquisition of right of user (underground right) in the land, building etc. mentioned here in the schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the city of Calcutta.

And whereas the Central Government is satisfied that the right of user (underground right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below are required for a public purpose.

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (underground right) in the land building, etc. referred to in the schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section, 7(1) of the Metro Railways (Construction of works) Act 1978 (Act 33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, in which right of user is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway :

**CALCUTTA METROPOLITAN CITY
LAND SCHEDULE NUMBER—10/35**

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required	Area, description and boundary of (UNDER GROUND RIGHT) the land etc. in which right of user is required		
Set	Sheet		Area in Sq.M.	Description	Boundary of the land
Drg.No.MRC/ W/Land/276-79		Construction of Metro Railway & other works connected therewith	PART I 84.82 Sqm.	Below 24A, 24 B R. G. Kar Road.	North—Northern part of the same premises. South—Passage between 24A, 24B, & 24C, 24D, R. G. Kar Road. East—Passage between 24A, 24B & 26A 26B, R.G. Kar Road. West—22, R. G. Kar Road.
-do-	-do-		PART II 2.00 Sqm.	Below 24A, 24B R.G. Kar Road.	North—R.G. Kar Road. South—Southern part of the same premises East—Passage between 24A, 24B & 26A, 26B, R. G. Kar Road. West—Western part of the same premises.
		TOTAL AREA :	86.82 Sqm. (.008682 hectare).		

[No. 79/MTP/C/LA/65]

का०सा०४५(अ).—यतः इसमें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (ग्रन्थर घाउण्ड अधिकार) का अर्जन कलकत्ता नगर में मेट्रो रेलवे और उससे संबन्धित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने इस बात का समाधान कर लिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत, आदि में उपयोग का अधिकार (ग्रन्थर घाउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

अतः केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (ग्रन्थर घाउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार अर्जित करने के लिए अपने वासय की घोषणा करती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई हितधिकारी व्यक्ति आपत्ति, यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत यथा विहित सजब प्राधिकारी के सम्मुख इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि, जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, को बताने वाली अनुसूची :

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची संख्या 10/36

प्लान का संदर्भ		प्रयोजन जिसके लिए भूमि आवि अथवा भूमि आवि में उपयोग का अधिकार अपेक्षित है।	भूमि आदि, जिसमें उपयोग का अधिकार अपेक्षित हो, का क्षेत्रफल, विवरण तथा उसकी सीमा-रेखा (अण्डर ग्राउण्ड अधिकार)		
सेट	शीट		क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विवरण	भूमि की सीमा रेखा
ड्राइंग सं० एम०आर० सी०/बक्स०/लैंड/276-79		मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण	115.50 वर्गमीटर (.011550 हेक्टेयर)	22, आर जी कार रोड के नीचे	उत्तर--उसी परिसर का उत्तरी भाग और आर जी कार रोड दक्षिण--उसी परिसर का दक्षिणी भाग पूर्व--24ए, 24बी, आर जी कार रोड पश्चिम--राजा दीनेन्द्र स्ट्रीट

[संख्या 79/एम०टी०पी०/सी/एल० ए०/ 66]

के० बाल चन्द्रन, सचिव, रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पब्लिक संप्रदाय सचिव ।

S.O. 845(E).—Whereas acquisition of right of user (Underground Right) in the land, building, etc. mentioned herein in the schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the City of Calcutta.

And whereas the Central Government is satisfied that the right of user (Underground Right) in the land, building, etc. referred to in the schedule below are required for public purpose.

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the right of user (Underground Right) in the land building, etc. referred to in the schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of Works) Act 1978 (Act 33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, in which right of user is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway :

CALCUTTA METROPOLITAN CITY

LAND SCHEDULE NUMBER 10/36

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. or the right of user in the land etc. is required.	(UNDERGROUND RIGHT)		
Set	Sheet		Area, description and boundary of the land etc. in right of user is required		
			Area in Sq.M.	Description	Boundary of the land
Drg. No.MRC/W/Land/276-79		Construction of Metro Railway and other works connected therewith.	115.50 Sqm. (.011550 Hectare).	Below 22, R. G. Kar Road.	North--Northern part of the same premises and R. G. Kar Road. South--Southern part of the same Premises. East--24A, 24B, R. G. Kar Road. West--Raja Dinendra Street.

[No. 79/MTP/C/LA/66]

K. BALACHANDRAN
Secretary, Railway Board
&

Ex-Officio Joint Secretary
to the Government of India.

